

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(सम विश्वविद्यालय)

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES**  
(Deemed University)

SARNATH, VARANASI-221007, U.P., INDIA



भोटविद्या-विश्वविद्यालयः

अंकेक्षित एवं प्रमाणित वार्षिक वित्तीय विवरण 2015-2016  
**Audited & Certified Annual Financial Statements**  
**Year 2015 - 2016**

---

Contact No. : 0542-2585148, 2585242 & Fax No. : 2585150, Website : [www.cuts.ac.in](http://www.cuts.ac.in)

## **Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the account of Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi for the year ended on 31 March, 2016**

1. We have audited the attached Balance Sheet of Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi as on 31 March, 2016, Income and Expenditure Accounts, and Receipts and Payment Account for the year ended on the date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period up to 2015-16. These financial statements are the responsibility of the University's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. The standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
  - (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
  - (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance; and
  - (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the University as required under Rule 45 of the Rules of the Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi, in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

**(A) Balance Sheet**

**(A.1) Fixed Assets ₹ 44.28 crore**

(A.1.1) An expenditure of ₹1.54 crore incurred on renovation work, was treated as revenue expenditure instead of capital. This resulted in understatement of 'surplus' by ₹ 1.54 crore consequently 'Fixed Assets' and 'capital Fund' were also understated to that extent. This was also reported in previous year.

(A.1.2) It does not include depreciated cost of a lift amounting to ₹ 3.23 lakh which resulted in understatement of 'Fixed Assets' and 'Capital Fund' by ₹ 3.23 lakhs each.

(A.1.3) As per Schedule-8 (Fixed Assets) of Annual Accounts University had books worth ₹ 446.68 lakh whereas according to information given by the library it was ₹ 446.04 lakh. This resulted in a difference of ₹ 0.62 lakh which needs to be reconciled. Similarly, there was a difference of ₹ 0.20 lakh related to 'Books by donation' which also needs to be reconciled.

(A.1.4) The University procured furniture and other fixed assets of ₹ 85.08 lakh and treated it as revenue expenditure instead of Capital expenditure. This resulted in understatement of 'surplus' and 'Fixed Assets' by the same amount.

**(A.3) Earmarked/ Endowment Fund ₹4.76 crore**

It included an amount of ₹ 4.30 crore of unspent Balance of Grants which should have been reflected in current liabilities. This resulted in overstatement of 'Earmarked / Endowment Funds' by ₹ 4.30 crore and understatement of 'Current Liabilities' to the same extent.

**(B) Income and Expenditure Account**

It included an amount of ₹ 8.02 lakh calculated at the rate of 11.88 percent annually for six year on a lift procured in February, 2011 at a cost of ₹ 11.25 lakh which resulted in under charge of depreciation by ₹ 8.02 lakh and understatement of 'surplus' to the same amount.

**(C) General**

No Provision for retirement benefits has been made by the University on actuarial basis required as per Accounting Standards-15.

**(D) Grants-in Aid**

The University is mainly funded through Grants-in-aid by the Ministry of Culture, Government of India. The University received Grants-in-Aid of ₹ 21.23 Crore (Non-Plan ₹ 15.12 Crore, ₹ 6.11 Crore), during the year 2015-16. After taking opening balance of ₹ 6.34 Crore (Plan ₹ 4.51 Crore + UGC XII Plan ₹ 0.10 Crore + Non-Plan ₹ 1.73 Crore), the total funds available work out to ₹ 27.57 (Plan ₹ 10.63Crore+ Non-Plan ₹ 16.85Crore + UGC XII Plan ₹ 0.10 Crore) Out of which the University utilized a sum of (Plan ₹ 4.51 Crore + UGC XII Plan ₹ 0.10 Crore + Non-Plan ₹ 1.73 Crore) 23.27 Crore (Non- Plan ₹ 13.64 Crore Plan ₹ 9.63 Crore) leaving a balance of ₹4.30 Crore Non- Plan ₹ 3.21 Crore + Plan ₹ 0.99 Crore+ UGC XII Plan ₹ 0.10 Crore as unutilized grants as on 31 March 2016.

- V. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of Accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India
- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi as on 31 March 2016; and
  - b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the 'deficit' for the year ended on that date.

**For and behalf of CAG of India**

**Place : Lucknow**

**Sd.**

**Date : 31.10.16**

**Principal Director of Audit (Central)**

## Annexure

### 1. Adequacy of Internal Audit System

The University does not have an Internal Audit wing of its own. Internal audit of the University was, however, conducted by a CA during the year 2015-16

### 2. Adequacy of Internal Control System

Internal control system in the university reflected following deficiency:

- Voucher did not contain voucher nos. and date. Hence, voucher numbers were also not entered into Cash Book.
- The University did not maintain its Gradation List/Seniority List and Incumbency Registers (Segregation of Duties of Employees) were also not being prepared.
- Physical verification of inventory was last conducted during 2011-12.

### 2. System of Physical Verification of fixed asset

Physical verification of Assets was carried out during 2015-16. It was last conducted during 2011-12.

### 4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification of inventory was not carried out during 2015-16. It was last conducted during 2011-12.

### 5. Regularity in Payment of Statutory dues

The University was regular in payment of statutory dues and no statutory dues were outstanding for more than six months except income tax of ₹1.34 lakh as on 31 March, 2016.

Dy. Director Audit (CE)

(5)

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES**  
(Deemed University)  
**SARNATH, VARANASI FOR THE YEAR ON 31 MARCH 2016**

**INDEX**

S.No.		Schedule	Page No.
1	<b>INCOME</b>		
(i)	Income from Sales/Services	12	28
(ii)	Grants/Subsidies	13	22-29
(iii)	Fees/Subscriptions	14	-
(iv)	Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow. Funds transferred to Funds)	15	-
(V)	Income from Royalty, Publication etc.	16	29
(Vi)	Interest Earned	17	29
(Vii)	Other Income	18	29
(Viii)	Increase/(decrease) in stock of Finished goods and work-in-progress	19	-
2	<b>EXPENDITURE</b>		
(i)	Establishment Expenses	20	29
(ii)	Other Administration Exp.	21	30
(iii)	Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	-
(iv)	Interest	23	-
(V)	Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule 8)		22-24

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES**  
(Deemed University)  
**SARNATH, VARANASI FOR THE YEAR ON 31 MARCH 2016**  
**INDEX**

S.No.		Schedule	Page No.
1	<b>LIABILITES</b>		
(i)	CORPUS/CAPITAL FUND	1	16
(ii)	RESERVES AND SURPLUS	2	16
(iii)	EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	17-19
(iv)	SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	20
(V)	UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-
(Vi)	DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-
(Vii)	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	21
2	<b>ASSETS</b>		
(i)	FIXED ASSETS (Net Block after depreciation)	8	22-24
(ii)	INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	-
(iii)	INVESTMENTS-OTHERS	10	25
(iv)	CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	26-27
(V)	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24	32-33
(Vi)	CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS	25	34

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES**  
(Deemed University)  
SARNATH, VARANASI

**BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016**

<b>LIABILITIES-</b>	<b>Schedule</b>	<b>(Amount in Rs.)</b>	
		<b>Current Year 2015-16</b>	<b>Previous Year 2014-15</b>
CORPUS/CAPITAL FUND	1	101,672,910.98	99,774,592.98
RESERVES AND SURPLUS	2	470,788,247.96	458,026,989.96
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	47,581,328.10	67,483,240.03
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	133,438,232.30	111,724,579.80
<b>TOTAL</b>		<b>753,480,719.34</b>	<b>737,009,402.77</b>
<b>ASSETS-</b>			
FIXED ASSETS (Net Block after depreciation)	8	442,787,188.94	439,095,569.94
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS-OTHERS	10	234,653,944.30	212,438,013.80
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	76,039,586.10	85,475,819.03
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)			
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS	25		
<b>TOTAL</b>		<b>753,480,719.34</b>	<b>737,009,402.77</b>

Sd.

(K.N. SHUKLA)  
In-charge (Accounts)

Sd.

(CA HARI N. SINGH BIEN)  
For Bisen & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 017192N  
Internal Auditor

Sd.

(DR. DEO RAJ SINGH)  
Registrar

Sd.

(PROF. NGAWANG SAMTEN)  
Vice Chancellor

# CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES

(Deemed University)

SARNATH, VARANASI

## INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2016

INCOME	Schedule	(Amount in Rs.) Current Year 2015-16	(Amount in Rs.) Previous Year 2014-15
Income from Sales/Services	12	1,079,286.00	1,001,946.00
Grants/Subsidies	13	187,299,459.69	200,238,525.08
Fees/Subscriptions	14		
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow. Funds transferred to Funds)	15		
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	4,461,654.00	2,098,625.00
Other Income	18	374,092.34	506,158.68
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and work-in-progress	19		
<b>TOTAL (A)</b>		<b>193,214,492.03</b>	<b>203,845,254.76</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Establishment Expenses	20	123,629,551.00	127,272,840.00
Other Administration Exp.	21	69,584,941.03	70,072,414.76
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22		
Interest	23		
Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule 8)		26,898,899.00	13,072,389.25
<b>TOTAL (B)</b>		<b>220,113,391.03</b>	<b>210,417,644.01</b>
Balance being excess of Expenditure over Income (A-B)		(26,898,899.00)	(6,572,389.25)
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/from General Reserve			
<b>BALANCE BEING SURPLUS/DEFICIT) CARRIED TO GENERAL RESERVE</b>			
<b>SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES</b>			
<b>CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS</b>	24		
	25		

Sd.

(K.N. SHUKLA)  
In-charge (Accounts)

Sd.

(CA HARI N. SINGH BIEN)  
For Bisen & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 017192N  
Internal Auditor

Sd.

(DR. DEO RAJ SINGH)  
Registrar

Sd.

(PROF. NGAWANG SAMTEN)  
Vice Chancellor

## CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES

(Deemed University)  
SARNATH, VARANASI

RECEIPT AND PAYMENT A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2016

### RECEIPT

### PAYMENT

PARTICULARS	YEAR 2015-16		YEAR 2014-15		PARTICULARS	YEAR 2015-16	YEAR 2014-15
		AMOUNT		AMOUNT		AMOUNT	AMOUNT
<b>OPENING BALANCE</b>					<b>NON-PLAN</b>		
Balance with Canara Bank (FC No.1)	492,829.98		382,869.98		<b>(A) Salaries &amp; Allowances</b>		
Balance with Union Bank of India(S.B.A/c)	64,774,191.19		4,021,558.40		Pay & Allowances	102,647,224.00	109,521,005.00
Cash in hand	204,588.00	<b>65,471,609.17</b>	495.00	<b>4,404,923.38</b>	Repayment of Loan against Salary	-	6,500,000.00
					L.T.C./H.T.C.	558,296.00	706,831.00
<b>GOVT. GRANTS</b>					Medical re-imburement	1,101,146.00	961,256.00
Received during the year 2015-16					Children Education Allowance	715,128.00	480,155.00
from the Govt. of India,					Festival Advance	198,000.00	270,000.00
Ministry of Culture					Liveries	-	-
Department of Culture, Puratatva Bhavan,					Compensatory Allowance	10,754.00	13,137.00
<b>New Delhi.</b>					Filling of Vacant Posts	-	5,297,460.00
<b>Under Non-Plan, Head 36</b>	118,749,844.00		139,998,325.00		<b>Total of Head 36</b>	<b>105,230,548.00</b>	<b>123,749,844.00</b>
<b>Under Non-Plan, Head 31</b>	25,040,549.00	<b>143,790,393.00</b>	32,798,159.00	<b>172,796,484.00</b>	<b>(B) Maintenance &amp; Contingencies</b>		
<b>Under Plan, Head 36</b>	9,042,996.00		20,000,000.00		Pension & Gratuity.	12,068,451.00	13,692,307.00
<b>Under Plan, Head 31</b>	42,494,981.00		32,443,036.00		House Building Advance	-	375,000.00
<b>Under Plan, Head 35</b>	9,587,536.00	<b>61,125,513.00</b>	77,499,969.00	<b>129,943,005.00</b>	Vehicle/Car/Computer advance	270,000.00	299,000.00
VSL Loan from UBI. For Non-Plan Salary.					Temporary & Contractual Services	-	2,314,304.00
<b>Under NER Project, Head 31</b>					Professional Training & Visiting Professors	-	-
<b>OTHER RECEIPT</b>					Wages & Garden	371,084.00	1,775,314.00
Miscellaneous Income	374,092.34		506,158.68		Scholarship	3,396,950.00	3,582,400.00
Income from Examination	167,163.00		119,650.00		Educational Tour A/C	579,432.00	649,958.00
Income from interest of H.B.A.	141,000.00		44,000.00		Purchase of Medicine	327,057.00	816,589.00
Income from interest on Car/ Vehicles/Computers Advances	88,039.00		45,096.00		Maintenance of Equipment	669,094.00	740,483.00
Interest from UBI on SB Account	4,461,654.00	<b>5,231,948.34</b>	2,098,625.00	<b>2,813,529.68</b>	Repair & Maintenance of building	-	102,492.00
					Staff Vehicles-Maintenance & Fuel	221,184.00	372,269.00
					<b>Sub total</b>	<b>17,903,252.00</b>	<b>24,720,116.00</b>
<b>Balance C/F</b>		<b>275,619,463.51</b>		<b>309,957,942.06</b>	<b>Balance C/F</b>	<b>105,230,548.00</b>	<b>123,749,844.00</b>

PARTICULARS	YEAR 2015-16		YEAR 2014-15		PARTICULARS	YEAR 2015-16		YEAR 2014-15	
		AMOUNT		AMOUNT			AMOUNT	AMOUNT	
Balance B/F		275,619,463.51		309,957,942.06	Balance B/F	105,230,548.00		123,749,844.00	
					Sub Total	17,903,252.00		24,720,116.00	
<b>INCOME FROM SALE</b>					Diesel for Gen. Set.	89,616.00		465,004.00	
Sale of old assets	-		355,342.00		Purchase of Electrical goods	-		703,628.00	
Sale of books	626,634.00	626,634.00	536,241.00	891,583.00	Electric Expenditure	7,115,469.00		6,258,600.00	
<b>RECOVERIES/INCOME FROM SERVICES</b>					Telephone Expenses	59,800.00		110,835.00	
Festival Advance	270,900.00		229,800.00		Examination	1,531,556.00		1,378,980.00	
Scooter Advance	265,800.00		303,420.00		Maintenance & Infrastructural Development of Sowa Rigpa.	-		74,715.00	
House building loan Reco.	166,780.00		70,780.00		Travelling Exp.	826,222.00		455,561.00	
License fees	156,226.00		130,955.00		Lecture Series	114,943.00		78,606.00	
Electricity Charges	526,858.00		306,903.00		Audit Fees	206,520.00		-	
Adjustment of Previous					Cultural Programme	42,231.00		371,602.00	
Advances	-	1,386,564.00	775,000.00	1,816,858.00	Membership ACU/AIU/IIC	116,915.00		108,427.00	
					Academic Exchange Programme	274,890.00		333,556.00	
					Stationery & Printing A/C	1,014,944.00		886,022.00	
					Postage	36,085.00		35,157.00	
					Misc., Consumable, VIP Visit	519,002.03		305,179.89	
					Advertisement	115,200.00		17,000.00	
					Annual Function/Convocation	445,630.00		-	
					Games & Sports	300,768.00		313,807.00	
					Legal Expenditure	75,500.00		197,534.00	
					Students Camping	325,387.00		301,115.00	
					Rents & Taxes	89,409.00		89,409.00	
					Cash in hand	-		-	
					Interest paid on Bank Loan to U.B.I.	-		58,162.00	
					<b>Total Head of 31</b>	<b>31,203,339.03</b>		<b>37,263,015.89</b>	
					<b>PLAN HEAD</b>				
					<b>(A) Salaries &amp; Allowances</b>				
					Pay & Allowances	18,597,003.00		10,292,996.00	
					<b>Total Head of 36</b>	<b>18,597,003.00</b>		<b>10,292,996.00</b>	
Balance C/F		277,632,661.51		312,666,383.06	Sub Total	-		-	
					Balance C/F	155,030,890.03		171,305,855.89	

PARTICULARS	YEAR 2015-16	YEAR 2014-15	PARTICULARS	YEAR 2015-16	YEAR 2014-15
	AMOUNT	AMOUNT		AMOUNT	AMOUNT
Balance B/F	277,632,661.51	312,666,383.06	Balance B/F	155,030,890.03	171,305,855.89
			Sub Total	-	-
			<b>(B) CONTINUING SCHEMES</b>		
			Dictionary Encyclopedia in Tibetan Sanskrit	46,621.00	-
			Development of Library Maintenance	4,664,903.00	2,474,318.00
			Publication & Printing	1,662,903.00	2,799,116.00
			Rare Buddhist Texts Research Unit	86,096.00	63,551.00
			Restoration & Translation Unit	-	522,638.00
			Furniture & Equipments Maintenance	8,508,248.00	2,729,308.00
			Other Plan Activities	2,052,078.00	656,412.00
			Promotion of Intellectual contact, exchange of scholars conferences and seminars	191,940.00	1,324,139.00
			Buddhist Festival	2,685,304.00	
			Unassigned Amount	1,186,001.00	540,133.00
			Repair & Maintenance of Building.	15,438,900.00	20,589,193.00
			Cash in Hand	-	204,588.00
			<b>(C) NEW SCHEME OF 12TH FIVE YEAR PLAN</b>		
			Tawang Project	785,778.00	-
			Establishment of Branches in Bhuntar/Pune		326,964.00
			Development of Faculty of Sowa-Rigpa.	603,597.00	249,388.00
			Development of Faculty of Shilpa Vidya.	130,746.00	15,233.00
			<b>Total Head of 31</b>	<b>38,043,115.00</b>	<b>32,494,981.00</b>
Balance C/F	277,632,661.51	312,666,383.06	Balance C/F	193,074,005.03	203,800,836.89

PARTICULARS	YEAR 2015-16		YEAR 2014-15		PARTICULARS	YEAR 2015-16		YEAR 2014-15	
		AMOUNT		AMOUNT			AMOUNT		AMOUNT
Balance B/F		277,632,661.51		312,666,383.06	Balance B/F		193,074,005.03		203,800,836.89
					<b>(D) CAPITAL WORKS with BUILDING PROJECTS</b>				
					(1) Construction of Building by HSCL, Varanasi.		2,408,643.00		9,261,951.00
					(2) Purchase of land		-		2,508,096.00
					(3) Cost of 1000 KVS Sub Station		-		795,883.00
					(4) Development of Library ( Books/e.books& Journals)		4,424,233.00		4,488,783.00
					(5) Purchase Of Furniture & Equipments		23,485,007.00		26,870,742.00
					(6) Advance for Gen Set to Kendriya Bhandar		-		5,132,081.00
					(7) Deposit with HSCL		9,350,000.00		-
					<b>Total Head of 35</b>		<b>39,667,883.00</b>		<b>49,057,536.00</b>
<b>UGC GRANT FOR 12TH PLAN.</b>					<b>N.E.R. PROJECT</b>				
Grants received from U.G.C General					(1) Project work of medicinal plant in NER		15,615.00		1,173,690.00
& Merged scheme.				-	<b>Total</b>		<b>15,615.00</b>		<b>1,173,690.00</b>
UGC (Area Study Plan fund)				950,000.00	<b>UNDER 12th PLAN UGC (GENERAL &amp; MERGED)</b>				
					Conference/Seminar/Symposium/Workshops.		-		300,000.00
					Equipments		-		1,540,315.00
					Refund of UGC Fund		847.00		-
					<b>TOTAL</b>		<b>847.00</b>		<b>1,840,315.00</b>
Balance C/F		277,632,661.51		313,616,383.06	Balance C/F		232,758,350.03		255,872,377.89

PARTICULARS	YEAR 2015-16	YEAR 2014-15	PARTICULARS	YEAR 2015-16	YEAR 2014-15
	AMOUNT	AMOUNT		AMOUNT	AMOUNT
Balance B/F	277,632,661.51	313,616,383.06	Balance B/F	232,758,350.03	255,872,377.89
<b>NON-BUDGETARY RECEIPTS</b>			<b>NON-BUDGETORY PAYMENTS</b>		
Adjustment of advance by HSCL (Girls Hostel)		10,946,831.00	Cost of Building by H.S.C.L. Previous Years		3,976,831.00
Adjustment of advance by Purvanchal Vidyut Vitaran khand Varanasi		17,508,213.00	Repair & Maint. Of Building by HSCL		17,508,213.00
Fund from I.C.P.R., New Delhi.	450,000.00		Expenditure on H.H.the Dalai Lama fund	114,000.00	114,000.00
Fund received from the office of H.H. Dalai Lama	114,000.00	114,000.00	Exp. of Preeti Endowment Fund interest	30,013.00	14,954.00
Interest on Fixed Deposit of Endowment fund	134,666.00		Expenditure of Corpus interest	625,557.00	443,990.00
Interest of Corpus cash	900,000.00	900,000.00			
Security deposited by Security Agency.		10,000.00			
Security deposited by library readers	8,000.00	5,000.00			
Fund from Director of Higher Technical Education A.P.			Expenditure of I.C.P.R.	450,000.00	-
Fund received from Smith Collage for Projects.(F.C.1)	475,000.00	1,840,580.00	Security refund of Library Readers	2,000.00	13,000.00
Misc. receipt (F.C.1)	25,116.00	-	Expenditure of Smith Collage for Project.(F.C.1)	610,076.00	1,730,620.00
Received from Sowa-Rigpa department	1,500,000.00		Balance with Canara Bank C.A.1 (F.C.)	382,869.98	492,829.98
			Balance with Union Bank Of India, Paigamberpur	46,266,577.50	64,774,191.19
			<b>SUB- Total</b>	<b>48,481,093.48</b>	<b>89,068,629.17</b>
<b>Gross Total</b>	<b>281,239,443.51</b>	<b>344,941,007.06</b>	<b>Gross total</b>	<b>281,239,443.51</b>	<b>344,941,007.06</b>

Sd.  
(K.N. SHUKLA)  
In-charge (Accounts)

Sd.  
(CA HARI N. SINGH BISEN)  
For Bisen & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 017192N  
Internal Auditor

Sd.  
(DR. DEO RAJ SINGH)  
Registrar

Sd.  
(PROF. NGAWANG SAMTEN)  
Vice Chancellor

# CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES

(Deemed University)

SARNATH, VARANASI

## RECEIPT AND PAYMENT OF G.P.F./C.P.F. A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2016

### RECEIPT

### PAYMENT

PARTICULARS	YEAR 2015-16 AMOUNT	YEAR 2014-15 AMOUNT	PARTICULARS	YEAR 2015-16 AMOUNT	YEAR 2014-15 AMOUNT
<b>OPENING BALANCES</b>			<b>G.P.F. A/C</b>		
G.P.F. A/C 30,62,860.80		1,173.80			
C.P.F. A/C 6,42,860.00	3,705,720.80	590.00			
		1,763.80	Loan & Advances from G.P.F.	6,981,136.00	14,338,668.00
Subscription Deposit in G.P.F. A/C	16,366,810.00	15,343,039.00	R.D. A/C deduction from G.P.F.	6,300,000.00	7,000,000.00
Interest drawn on G.P.F. A/C	188,254.50	123,823.00	Investment from the fund of GPF in the shape of FD.	-	-
Subscription deposited in C.P.F.	1,460,877.00	1,552,887.00	<b>S.P.F. A/C</b>		
Interest drawn on C.P.F. A/C	25,762.00	14,013.00	Loan & Advances from C.P.F.	1,093,000.00	924,630.00
F.D./R.D. encashed	8,804,904.00	8,933,493.00	Investment from the fund of C.P.F. in the shape of FD.	-	-
			<b>Closing Balance with</b>		
			G.P.F. A/C 1,51,41,693.30	3,062,860.80	
			C.P.F. A/C 10,36,499.00	642,860.00	3,705,720.80
<b>Gross Total Rs.</b>	<b>30,552,328.30</b>	<b>25,969,018.80</b>	<b>Gross Total Rs.</b>	<b>30,552,328.30</b>	<b>25,969,018.80</b>

Sd.

(K.N. SHUKLA)  
In-charge (Accounts)

Sd.

(CA HARI N. SINGH BISEN)  
For Bisen & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 017192N  
Internal Auditor

Sd.

(DR. DEO RAJ SINGH)  
Registrar

Sd.

(PROF. NGAWANG SAMTEN)  
Vice Chancellor

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES**

(Deemed University)

SARNATH, VARANASI

DEPARTMENT OF SOWA-RIGPA

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2016**

<b>RECEIPT</b>			<b>PAYMENT</b>		
<b>PARTICULARS</b>	<b>YEAR 2015-16 AMOUNT</b>	<b>YEAR 2014-15 AMOUNT</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>YEAR 2015-16 AMOUNT</b>	<b>YEAR 2014-15 AMOUNT</b>
<b>OPENING BALANCES</b>			Purchase of Raw Medicine	350,677.00	372,262.00
Cash in hand	-	4,490.00	Pharmacy and Herbal Garden Items	25,164.00	-
UBI A/C 41630102010119425	1,277,377.84	848,305.80	Salary and Wages	442,547.00	360,375.00
Sale of Medicines	1,470,894.00	1,254,754.00	Bank Charges	410.96	540.32
Interest Received on S.B A/c	56,613.00	36,335.00	Repair & Maintenance	20,311.00	-
Gas Subsidy refund	888.72	1,053.36	Transportation Expenses	810.00	-
Buddhist Festival	204,521.00	-	Office & Miscellaneous Expenses	109,659.00	134,383.00
Fixed Deposit encashed	700,000.00	-	Gas Agency Charges	1,240.00	-
Interest Received on F.D.	129,604.00	-	Payment to CUTS	1,500,000.00	-
			<b>Closing Balances-</b>		
			Cash in Hand	-	-
			UBI A/C No. 416302010119425	1,389,079.60	1,277,377.84
<b>Gross Total Rs.</b>	<b>3,839,898.56</b>	<b>2,144,938.16</b>	<b>Gross Total Rs.</b>	<b>3,839,898.56</b>	<b>2,144,938.16</b>

Sd.

(K.N. SHUKLA)  
In-charge (Accounts)

Sd.

(CA HARI N. SINGH BISEN)  
For Bisen & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 017192N  
Internal Auditor

Sd.

(DR. DEO RAJ SINGH)  
Registrar

Sd.

(PROF. NGAWANG SAMTEN)  
Vice Chancellor

# CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES

(Deemed University)  
SARNATH, VARANASI

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND :	Current Year 2015-16		Previous Year 2014-15	
Balance as at the beginning of the year (Donation Rs.6,48,03,751.98 & Interest Rs. 3,27,52,761.00)	97,556,512.98		93,368,815.98	
Addition during the year	1,091,472.00		4,187,697.00	
Less : Deduction during the year ( Interest Utilized)	-	98,647,984.98	-	97,556,512.98
Fund of Sowa-Rigpa	1,500,000.00			
FD of Revolving Fund of Sowa-Rigpa	2,218,080.00		2,053,220.00	
Less: encashed of FD of Revolving Fund	829,604.00			
Interest of Revolving Fund	136,450.00	3,024,926.00	164,860.00	2,218,080.00
<b>TOTAL Rs.</b>		<b>101,672,910.98</b>		<b>99,774,592.98</b>
<b>SCHEDULE 2-RESERVES AND SURPLUS :</b>				
<b>A. Capital Reserve (land) : As per last Account</b>	<b>32,908,064.84</b>		<b>30,399,968.84</b>	
Addition during the year	-		2,508,096.00	
Less : Deductions during the year	-	<b>32,908,064.84</b>	-	<b>32,908,064.84</b>
<b>B. Capital Reserve (Building fund) : As per last Account</b>	305,121,396.32		291,882,614.32	
Addition during the year	2,408,643.00		13,238,782.00	
Add: Trnsfer of figure from C.R. Land-	-		-	
Less : Deductions during the year	-	<b>307,530,039.32</b>	-	<b>305,121,396.32</b>
<b>C. Capital Reserve (Waste water system) : As per last Account</b>	6,464,900.00		6,464,900.00	
Addition during the year (Correction entry)*	-		-	
Less : Deductions during the year	-	<b>6,464,900.00</b>	-	<b>6,464,900.00</b>
<b>D. Capital Reserve (Underground cabling) : As per last Account</b>	3,298,000.00		3,298,000.00	
Addition during the year	-		-	
Less : Deductions during the year	-	<b>3,298,000.00</b>	-	<b>3,298,000.00</b>
<b>E. Capital Reserve (Advance for building &amp; P.V.V.Khand) :</b>				
As per last Account	-		28,455,044.00	
Addition during the year	-		-	
Less : Deductions during the year	-	-	28,455,044.00	-
<b>F. Capital Reserve (Other Assets) : As per last Account</b>	110,234,628.80		78,947,971.40	
Addition during the year	38,786,216.00		42,750,783.88	
Less : Deduction during the year ( Assets by sale & recovery)	1,534,702.00		4,891,737.23	
Less: last year excess Expenditure from Bank Loan	-		-	
Less : Excess of Expenditure over Income	26,898,899.00	<b>120,587,243.80</b>	6,572,389.25	<b>110,234,628.80</b>
<b>TOTAL Rs.</b>		<b>470,788,247.96</b>		<b>458,026,989.96</b>

# CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES

(Deemed University)

SARNATH, VARANASI

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

(Amount-Rs.)

<b>SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>Current Year 2015-16</b>		<b>Previous Year 2014-15</b>	
<b>(a) Opening balance (Prof. K. S. Murty, A.K.Saran &amp; Preeti)</b>				
Endowment funds Rs. 6,24,413.00 & Interest Rs. 9,04,758.00)				
As per last Account	1,529,171.00		1,529,171.00	
Addition during the year	-		-	
Less : Deductions during the year	-	<b>1,529,171.00</b>	-	<b>1,529,171.00</b>
<b>(b) 1. Unspent balance of Non-Plan (36-Grant-in-aid-Salaries)</b>				
As per last Account	16,250,155.50		1,674.50	
Addition during the year (Govt. grant)	118,749,844.00		139,998,325.00	
Secured Loan from UBI	-		-	
Addition during the year (University Income)	-		-	
Less : Expenditure during the year	105,230,548.00	<b>29,769,451.50</b>	123,749,844.00	<b>16,250,155.50</b>
<b>(c) 2. Unspent balance of Non-Plan (31-Grants-in-aid-General)</b>			-	
As per last Account	1,059,450.67		1,841.88	
Addition during the year (Govt. grant)	25,040,549.00		32,798,159.00	
Addition during the year (University Income)	7,449,734.34		5,522,465.68	
Less : Deductions during the year	31,203,339.03	<b>2,346,394.98</b>	37,263,015.89	<b>1,059,450.67</b>
<b>(d) 1. Unspent balance of Plan (36-Grant-in-aid-Salaries)</b>				
As per last Account	9,707,004.00			
Addition during the year	9,042,996.00		20,000,000.00	
Less : Deductions during the year	18,597,003.00	<b>152,997.00</b>	10,292,996.00	<b>9,707,004.00</b>
<b>(e) 1. Unspent balance of Plan ( 31-Grants-in-aid-General)</b>				
As per last Account	5,018.93		56,963.93	
Addition during the year	42,494,981.00		32,443,036.00	
Less : Deductions during the year	38,043,115.00	<b>4,456,884.93</b>	32,494,981.00	<b>5,018.93</b>
<b>(f) 2. Unspent balance of Plan (35-Grants for Creation of Capital Assets)</b>				
As per last Account	35,412,463.49		30.49	
Addition during the year	9,587,536.00		77,499,969.00	
Addition during the year (University Income by cancellation of cheque)	-		6,970,000.00	
Less : Deductions during the year	39,667,883.00	<b>5,332,116.49</b>	49,057,536.00	<b>35,412,463.49</b>
<b>TOTAL C/F</b>		<b>43,587,015.90</b>		<b>63,963,263.59</b>

TOTAL B/F	Current Year 2015-16		Previous Year 2014-15	
		43,587,015.90		63,963,263.59
<b>(g) Unspent balance of North East Region Projects</b>				
As per last Account	15,615.00		1,189,305.00	
Addition during the year	-		-	
Less : Deductions during the year	15,615.00	-	1,173,690.00	15,615.00
<b>(h) Unspent balance Corpus Kosh Interest</b>				
As per last Account	726,465.00		270,455.00	
Addition during the year	900,000.00		900,000.00	
Less : Deductions during the year	625,557.00	1,000,908.00	443,990.00	726,465.00
<b>(i) Fund Received by Tasmania University (Prof. J.Garfield)</b>				
As per last Account	37,905.60		37,905.60	
Addition during the year	-		-	
Less : Deductions during the year	-	37,905.60	-	37,905.60
<b>(j) Unspent balance of Donation</b>				
As per last Account	505,001.00		505,001.00	
Addition during the year	-		-	
Less : Deductions during the year	-	505,001.00	-	505,001.00
<b>(k) Unspent balance of UGC Grant Under 12th Plan General Development.</b>				
As per last Account	847.00		1,841,162.00	
Addition during the year	-		-	
Less : Refund to UGC	847.00	-	1,840,315.00	847.00
<b>(l) Unspent balance of Endowment Expenditure</b>				
As per last Account	-		14,954.00	
Addition during the year	134,666.00		-	
Less : Deductions during the year	30,013.00	104,653.00	14,954.00	-
<b>(m) Unspent balance of Dharmashala fund</b>				
As per last Account	-		-	
Addition during the year	114,000.00		114,000.00	
Less : Deductions during the year	114,000.00	-	114,000.00	-
<b>(n) Stipend Received from Higher Technical Education (A.P.)</b>				
As per last Account	6,765.00		6,765.00	
Addition during the year	-		-	
Less : Deductions during the year	-	6,765.00	-	6,765.00
<b>Total C/F</b>		<b>45,242,248.50</b>		<b>65,255,862.19</b>

	Current Year 2015-16		Previous Year 2014-15	
<b>Balance B/F</b>		<b>45,242,248.50</b>		<b>65,255,862.19</b>
<b>(o) Unspent balance of ICPR</b>				
As per last Account	-		-	
Addition during the year	450,000.00		-	
Less : Deductions during the year	450,000.00	-	-	-
<b>(p) Unspent balance of UGC Grant for area study Centre</b>				
As per last Account	950,000.00		-	
Addition during the year	-		950,000.00	
Less : Deductions during the year	-	950,000.00	-	950,000.00
<b>(q) Unspent balance of Sowa-Rigpa revolving fund as per S.B. Account No. 416302010119425</b>				
As per last Account	1,277,377.84		848,305.80	
Addition during the year	1,389,079.60		1,277,377.84	
Less : Deductions during the year	1,277,377.84	1,389,079.60	848,305.80	1,277,377.84
<b>TOTAL Rs.</b>		<b>47,581,328.10</b>		<b>67,483,240.03</b>

# CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES

(Deemed University)  
SARNATH, VARANASI

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

<b>SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS:</b>	<b>Current Year 2015-16</b>		<b>Previous Year 2014-15</b>	
<u>LIABILITIES OF SECURED BANK LOAN FROM UNION BANK OF INDIA, PAIGAMBERPUR, VARANASI</u>				
Opening balance	-		6,500,000.00	
Addition During the Year	-		-	
Repayment during the year	-	-	6,500,000.00	-
<b>TOTAL RS.</b>		-		-

# CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES

(Deemed University)  
SARNATH, VARANASI

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	Current Year 2015-16		Previous Year 2014-15	
<b>A. CURRENT LIABILITIES OF GPF &amp; CPF OF EMPLOYEES AS PER BANK &amp; INVESTMENT IN KDR/UTI</b>				
Opening balance of fixed deposits	90,851,299.00		86,320,526.00	
Addition of Fixed deposits of the year	16,392,389.00		45,284,217.00	
Adjustment during the year	14,757,850.00	<b>92,485,838.00</b>	40,753,444.00	<b>90,851,299.00</b>
Opening balance of GPF/CPF saving A/C	3,705,720.80		1,763.80	
Addition during the year	26,846,607.50		25,967,255.00	
Adjustment during the year	14,374,136.00	<b>16,178,192.30</b>	22,263,298.00	<b>3,705,720.80</b>
Interest accrued but not received opening balance	17,070,060.00		13,018,674.00	
Interest accrued during the year 2015-16	9,479,761.00		4,051,386.00	
Adjustment during the year	1,879,119.00	<b>24,670,702.00</b>	-	<b>17,070,060.00</b>
SUB TOTAL		<b>133,334,732.30</b>		<b>111,627,079.80</b>
<b>B. SECURITY OF LIBRARY READERS &amp; SECURITY GUARDS</b>				
As per last Account	97,500.00		95,500.00	
Addition during the year	8,000.00		15,000.00	
Less : Deductions during the year	2,000.00	<b>103,500.00</b>	13,000.00	<b>97,500.00</b>
<b>TOTAL RS. (A+B)</b>		<b>133,438,232.30</b>		<b>111,724,579.80</b>

# CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES

(Deemed University)  
SARNATH, VARANAS

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

### SCHEDULE-8 FIXED ASSETS:

PARTICULARS	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				(Amount in Rs.) NET BLOCK	
	Rate (SLM)	Cost/valuation As at beginning of the year on 1.4.2015	Additions during the year 2015-16	Deductions during the year 2015-16	Cost/valuation at the year-end on 31.3.2016	As at the beginning of the year 2015-16	During the year 2015-16	On Deductions during the 2015-16	Total up to the year-end on 31.03.2016	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
	<b>Fixed assets:</b>										
Fixed Assets (as taken, valued and certified by the principal officer)											
<b>1. Land</b>											
Land at cost		32,908,064.84			32,908,064.84	-	-			32,908,064.84	32,908,064.84
<b>2. Buildings</b>											
Cost of Building made by											
(a) The CPWD	1.58%	40,343,914.51			40,343,914.51	5,939,890.12	637,434.00		6,577,324.12	33,766,590.39	34,404,024.39
(b) The PWD	1.58%	9,885,607.49			9,885,607.49	1,127,946.20	156,193.00		1,284,139.20	8,601,468.29	8,757,661.29
(c) The RNN LTD	1.58%	10,140,000.00			10,140,000.00	1,492,926.00	160,212.00		1,653,138.00	8,486,862.00	8,647,074.00
(d) Cost of Building by HSCL	1.58%	24,181,412.00			24,181,412.00	2,530,432.00	382,066.00		2,912,498.00	21,268,914.00	21,650,980.00
(e) The C. & D.S. UP Jalgam	1.58%	72,527,749.00			72,527,749.00	8,670,831.16	1,145,938.00		9,816,769.16	62,710,979.84	63,856,917.84
(f) Work in Progress of Building by HSCL		146,025,343.00	1,503,835.00		147,529,178.00	-	-		-	147,529,178.00	146,025,343.00
Dept. Building	1.58%	747,367.82			747,367.82	98,853.30	11,808.00		110,661.30	636,706.52	648,514.52
Construction/Ext. Boundary wall	1.58%	256,438.50	53,000.00		309,438.50	23,636.06	4,889.00		28,525.06	280,913.44	232,802.44
Construction of Basketball play ground	9.50%	100,564.00			100,564.00	14,805.98	9,554.00		24,359.98	76,204.02	85,758.02
Waste water System	1.58%	6,464,900.00			6,464,900.00	844,739.77	102,145.00		946,884.77	5,518,015.23	5,620,160.23
Cost of Fountain	1.58%	913,000.00			913,000.00	111,182.90	14,425.00		125,607.90	787,392.10	801,817.10
Under ground cabling	5.28%	3,298,000.00			3,298,000.00	483,815.60	174,134.00		657,949.60	2,640,050.40	2,814,184.40
<b>3. Plant, Machinery &amp; Equipments</b>											
Lift	9.50%	-	1,750,732.00		1,750,732.00	-	166,319.00		166,319.00	1,584,413.00	-
Tubewell	19.00%	336,000.00	851,808.00		1,187,808.00	159,600.00	225,683.00		385,283.00	802,525.00	176,400.00
Transformer	9.50%	162,855.00			162,855.00	77,356.82	15,471.00		92,827.82	70,027.18	85,498.18
1000 KVS Sub Station	9.50%	5,016,490.00			5,016,490.00	-	476,567.00		476,567.00	4,539,923.00	5,016,490.00
Internet donated by Orient foundation	15.83%	447,900.00			447,900.00	212,751.40	70,903.00		283,654.40	164,245.60	235,148.60
Internet (by library)	15.83%	1,248,700.00			1,248,700.00	593,131.25	197,669.00		790,800.25	457,899.75	655,568.75
<b>TOTAL C/F</b>		<b>355,004,306.16</b>	<b>4,159,375.00</b>	<b>-</b>	<b>359,163,681.16</b>	<b>22,381,898.56</b>	<b>3,951,410.00</b>	<b>-</b>	<b>26,333,308.56</b>	<b>332,830,372.60</b>	<b>332,622,407.60</b>

PARTICULARS	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Rate (SLM)	Cost/valuation As at beginning of the year on 1.4.2015	Additions during the year 2015-16	Deductions during the year 2015-16	Cost/valuation at the year-end on 31.3.2016	As at the beginning of the year 2015-16	During the year 2015-16	On Deductions during the 2015-16	Total up to the year-end on 31.03.2016	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
<b>TOTAL B/F</b>		<b>355,004,306.16</b>	<b>4,159,375.00</b>	<b>-</b>	<b>359,163,681.16</b>	<b>22,381,898.56</b>	<b>3,951,410.00</b>	<b>-</b>	<b>26,333,308.56</b>	<b>332,830,372.60</b>	<b>332,622,407.60</b>
<b>Air conditioner</b>											
<b>(by Store)</b>	6.33%	7,762,870.89	1,269,409.00		9,032,279.89	680,988.84	571,743.00		1,252,731.84	7,779,548.05	7,081,882.05
<b>(by Library)</b>	6.33%	648,244.70			648,244.70	307,917.50	41,034.00		348,951.50	299,293.20	340,327.20
<b>Ayurveda)</b>	6.33%	73,051.00			73,051.00	34,699.84	4,624.00		39,323.84	33,727.16	38,351.16
<b>Zerex/Duplication</b>											
<b>(by Store)</b>	6.33%	761,437.80	336,859.00		1,098,296.80	180,813.12	69,522.00		250,335.12	847,961.68	580,624.68
<b>Machine</b>											
<b>(by Library)</b>	6.33%	968,738.79			968,738.79	441,533.45	61,321.00		502,854.45	465,884.34	527,205.34
<b>(by Ayurved)</b>	6.33%	78,387.00			78,387.00	22,338.00	4,962.00		27,300.00	51,087.00	56,049.00
<b>Type writer</b>											
<b>(by Store)</b>	6.33%	31,560.96			31,560.96	14,990.20	1,998.00		16,988.20	14,572.76	16,570.76
<b>(by Library)</b>	6.33%	37,192.87			37,192.87	17,668.34	2,354.00		20,022.34	17,170.53	19,524.53
<b>Fax/Telephone</b>											
<b>(by Store)</b>	5.28%	599,792.50			599,792.50	257,329.00	31,669.00		288,998.00	310,794.50	342,463.50
<b>&amp; Intercom</b>											
<b>(by Library)</b>	5.28%	42,954.00	15,610.00		58,564.00	20,401.00	392.00		20,793.00	37,771.00	22,553.00
<b>(by Director Office)</b>	5.28%	24,700.00			24,700.00	11,419.00	1,304.00		12,723.00	11,977.00	13,281.00
<b>(by Dictionary)</b>	5.28%	1,100.00			1,100.00	522.25	58.00		580.25	519.75	577.75
<b>Computer</b>											
<b>(by Ayurved)</b>	31.67%	369,892.67			369,892.67	138,286.00	117,145.00		255,431.00	114,461.67	231,606.67
<b>(by Store)</b>	31.67%	18,849,879.04	1,944,259.00		20,794,138.04	5,249,642.43	6,585,503.00		11,835,145.43	8,958,992.61	13,600,236.61
<b>(by Library)</b>	31.67%	5,282,660.94			5,282,660.94	3,172,031.00	1,673,019.00		4,845,050.00	437,610.94	2,110,629.94
<b>(by Dictionary)</b>	31.67%	1,746,064.00			1,746,064.00	964,339.50	552,978.00		1,517,317.50	228,746.50	781,724.50
<b>(by Publication)</b>	31.67%	806,796.00			806,796.00	975,901.00	(169,105.00)		806,796.00	-	-169,105.00
<b>(by Research Unit)</b>	31.67%	1,558,798.00			1,558,798.00	919,023.00	493,671.00		1,412,694.00	146,104.00	639,775.00
<b>T.V./V.C.R./Slide</b>											
<b>Projector</b>											
<b>(by Store)</b>	7.31%	265,520.00			265,520.00	82,073.00	19,409.00		101,482.00	164,038.00	183,447.00
<b>(by Library)</b>	7.31%	491,479.00			491,479.00	233,449.00	35,927.00		269,376.00	222,103.00	258,030.00
<b>Cycle &amp; Trolley</b>											
<b>(by Store)</b>	6.33%	3,321.60			3,321.60	2,348.50	210.00		2,558.50	763.10	973.10
<b>Generator</b>											
<b>(by Store)</b>	6.33%	476,290.00			476,290.00	226,237.00	30,149.00		256,386.00	219,904.00	250,053.00
<b>(by Library)</b>	6.33%	166,891.88			166,891.88	79,271.00	10,564.00		89,835.00	77,056.88	87,620.88
<b>(by Dictionary)</b>	6.33%	30,500.00			30,500.00	14,489.00	1,931.00		16,420.00	14,080.00	16,011.00
<b>Binder Machine</b>											
<b>(by Library)</b>	6.33%	60,213.00			60,213.00	28,603.00	3,811.00		32,414.00	27,799.00	31,610.00
<b>Audio Visual</b>											
<b>(by Store)</b>	7.31%	7,014,539.64	22,675.00		7,037,214.64	1,047,333.15	514,420.00		1,561,753.15	5,475,461.49	5,967,206.49
<b>(by Library)</b>	7.31%	314,397.00			314,397.00	140,315.00	22,982.00		163,297.00	151,100.00	174,082.00
<b>Microfilm Fishe</b>											
<b>(by Library)</b>	7.31%	254,741.00			254,741.00	121,003.00	18,621.00		139,624.00	115,117.00	133,738.00
<b>Microfilm Roll</b>											
<b>(by Library)</b>	7.31%	541,320.00			541,320.00	257,129.00	39,570.00		296,699.00	244,621.00	284,191.00
<b>TOTAL C/F</b>		<b>404,267,640.44</b>	<b>7,748,187.00</b>	<b>-</b>	<b>412,015,827.44</b>	<b>38,023,992.68</b>	<b>14,693,196.00</b>	<b>-</b>	<b>52,717,188.68</b>	<b>359,298,638.76</b>	<b>366,243,647.76</b>

PARTICULARS	GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Rate (SLM)	Cost/valuation As at beginning of the year on 1.4.2015	Additions during the year 2015-16	Deductions during the year 2015-16	Cost/valuation at the year-end on 31.3.2016	As at the beginning of the year 2015-16	During the year 2015-16	On Deductions during the 2015-16	Total up to the year-end on 31.03.2016	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
<b>TOTAL B/F</b>		404,267,640.44	7,748,187.00	-	412,015,827.44	38,023,992.68	14,693,196.00	-	52,717,188.68	359,298,638.76	366,243,647.76
Photo/Video/Microfil (by Ayurved)	7.31%	48,240.00			48,240.00	22,911.00	3,526.00		26,437.00	21,803.00	25,329.00
(by Library)	7.31%	1,492,673.75			1,492,673.75	709,020.00	109,114.00		818,134.00	674,539.75	783,653.75
Medical Equipment (by Store)	6.33%	11,973.00	20,850.00		32,823.00	5,689.00	2,077.00		7,766.00	25,057.00	6,284.00
(by Ayurved)	6.33%	808,163.00	167,455.00		975,618.00	277,065.00	61,757.00		338,822.00	636,796.00	531,098.00
4. Vehicle	11.88%	1,867,637.50			1,867,637.50	1,431,978.00	221,875.00		1,653,853.00	213,784.50	435,659.50
5. Furniture & Fixtures:											
Tibetan Oven	11.88%	55,219.00			55,219.00	34,951.00	6,560.00		41,511.00	13,708.00	20,268.00
Cooler & Fan (by Store)	9.50%	956,899.10	161,640.00		1,118,539.10	458,306.60	106,261.00		564,567.60	553,971.50	498,592.50
(by Library)	9.50%	7,805.12			7,805.12	4,938.00	741.00		5,679.00	2,126.12	2,867.12
(by Ayurved)	9.50%	4,700.00			4,700.00	1,192.00	447.00		1,639.00	3,061.00	3,508.00
(by Dictionary)	9.50%	12,850.00			12,850.00	8,131.00	1,221.00		9,352.00	3,498.00	4,719.00
Furniture (Wooden & Plastic) (by Store)	11.88%	23,238,994.05	2,805,443.00		26,044,437.05	6,682,684.60	3,094,079.00		9,776,763.60	16,267,673.45	16,556,309.45
(by Library)	11.88%	1,377,530.43			1,377,530.43	858,053.00	163,651.00		1,021,704.00	355,826.43	519,477.43
(by Dictionary)	11.88%	17,764.00			17,764.00	11,243.00	2,110.00		13,353.00	4,411.00	6,521.00
(by Sowa-Rigpa)	11.88%	400,958.00			400,958.00	126,903.60	47,634.00		174,537.60	226,420.40	274,054.40
Furniture (Steel) (by Store)	11.88%	19,962,453.49	14,675,487.00		34,637,940.49	4,321,426.00	4,114,987.00		8,436,413.00	26,201,527.49	15,641,027.49
(by Library)	11.88%	1,207,098.68			1,207,098.68	763,524.00	143,403.00		906,927.00	300,171.68	443,574.68
(by Ayurved)	11.88%	1,668,269.25			1,668,269.25	561,282.30	198,190.00		759,472.30	908,796.95	1,106,986.95
(by Tawang Project)	11.88%	262,157.60			262,157.60	101,228.00	31,144.00		132,372.00	129,785.60	160,929.60
(by Dictionary)	11.88%	-			-	-	-		-	-	-
Electrical Goods (by Diction.)	9.50%	-			-	-	-		-	-	-
(by Store)	9.50%	6,593,491.13	314,588.00		6,908,079.13	2,222,596.00	656,267.00		2,878,863.00	4,029,216.13	4,370,895.13
(by Library)	9.50%	280,598.78			280,598.78	162,915.00	26,657.00		189,572.00	91,026.78	117,683.78
(by Ayurved)	9.50%	98,499.00			98,499.00	44,019.00	9,357.00		53,376.00	45,123.00	54,480.00
(by Director Office)	9.50%	45,680.00			45,680.00	24,453.00	4,340.00		28,793.00	16,887.00	21,227.00
6. Books											
Books Purchase (by Library)	6.33%	40,484,147.34	4,184,233.00		44,668,380.34	13,078,071.40	2,827,508.00		15,905,579.40	28,762,800.94	27,406,075.94
(by RBTRU)	6.33%	498,557.28	1,280.00		499,837.28	208,581.00	31,640.00		240,221.00	259,616.28	289,976.28
(by Ayurved)	6.33%	719,718.00	240,000.00		959,718.00	39839.35	60,750.00		100,589.35	859,128.65	679,878.65
Books by Donation (by Library)	6.33%	4,053,114.33	264,655.00		4,317,769.33	1,224,368.20	273,315.00		1,497,683.20	2,820,086.13	2,828,746.13
(by RBTRU)	6.33%	76,173.40	6,700.00		82,873.40	29,384.00	5,246.00		34,630.00	48,243.40	46,789.40
Thanka Painting (by Library)	6.33%	29,169.00			29,169.00	13,859.00	1,846.00		15,705.00	13,464.00	15,310.00
7. Consumable & others											
Consumable & others	100.00%	3,902,148.32	-		3,902,148.32	3,902,148.32	-		3,902,148.32	-	-
<b>TOTAL RS.</b>		514,450,322.99	30,590,518.00	-	545,040,840.99	75,354,753.05	26,898,899.00	-	102,253,652.05	442,787,188.94	439,095,569.94

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES**  
(Deemed University)  
SARNATH, VARANASI

**SCHEDULE 10- INVESTMENTS - OTHER**

DESCRIPTION	Cost/valuation As at beginning of the year on 31.03.2015	Additions During the year 2015-16	Deductions during the year 2015-16	Cost/valuation at the year-end on 31.03.16	Current Year 2015-16	Previous year 2014-15
Fixed Deposit (Donation of Prof. K. S. Murty, Prof. A. K. Saran & Preeti Endowment Funds of the University)	624,413.00	-	-	624,413.00	624,413.00	624,413.00
Interest on F.D. of Endowment fund	904,758.00	-	-	904,758.00	904,758.00	904,758.00
F.D. & balance with Canara Bank (Corpus and Donation fund with interest earned)	97,063,683.00	1,201,432.00	-	98,265,115.00	98,265,115.00	97,063,683.00
CPF/GPF as per Bank and Investment in KDR/UTI	90,851,299.00	16,392,389.00	14,757,850.00	92,485,838.00	92,485,838.00	90,851,299.00
Opening balance of GPF/CPF SB A/C	3,705,720.80	26,846,607.50	14,374,136.00	16,178,192.30	16,178,192.30	3,705,720.80
Interest accrued but not received O.B.	17,070,060.00	9,479,761.00	1,879,119.00	24,670,702.00	24,670,702.00	17,070,060.00
<b>Fixed deposits</b>						
Fixed Deposit of Sowa-Rigpa revolving Fund	1,300,000.00	-	700,000.00	600,000.00	600,000.00	1,300,000.00
Interest on revolving fund (Sowa-Rigpa)	918,080.00	136,450.00	129,604.00	924,926.00	924,926.00	918,080.00
<b>TOTAL RS.</b>	<b>212,438,013.80</b>	<b>54,056,639.50</b>	<b>31,840,709.00</b>	<b>234,653,944.30</b>	<b>234,653,944.30</b>	<b>212,438,013.80</b>

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES**  
(Deemed University)

SARNATH, VARANASI

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016**

**SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.**

DESCRIPTION		Current Year 2015-16		Previous year 2014-15	
<b>A. CURRENT ASSETS:</b>					
1.	<b>Cost of Own Publication:</b>	<b>11,426,232.02</b>			
	Addition during the year	786,341.00		9,163,357.02	
	Less: Sale of Own Publication & Deductions	626,634.00	<b>11,585,939.02</b>	2,799,116.00	
2.	<b>Cash Balance in hand as per O. B.</b>	204,588.00		536,241.00	<b>11,426,232.02</b>
	Add during the year			495.00	
	Adjustment During the year	204,588.00	-	204,588.00	
3.	<b>Bank Balances:</b>			495.00	<b>204,588.00</b>
a)	<b>Balance with Union Bank as per O. B.</b>	64,774,191.19		4,021,558.40	
	Add during the year	46,266,577.50		64,774,191.19	
	Adjustment During the year	64,774,191.19	<b>46,266,577.50</b>	4,021,558.40	<b>64,774,191.19</b>
b)	<b>Balance with Canara Bank FC1 as per O. B.</b>	492,829.98		382,869.98	
	Add during the year	382,869.98		492,829.98	
	Adjustment During the year	492,829.98	<b>382,869.98</b>	382,869.98	<b>492,829.98</b>
c)	<b>Balance with Union Bank Sowa-Rigpa CUTS As</b>	1,277,377.84		848,305.80	
	Add during the year	1,389,079.60		1,277,377.84	
	Adjustment During the year	1,277,377.84	<b>1,389,079.60</b>	848,305.80	<b>1,277,377.84</b>
1.	<b>LOAN &amp; ADVANCES:</b>				
a)	<b>Festival Advance as per O. B.</b>	262,200.00		222,000.00	
	Add during the year	198,000.00		270,000.00	
	Adjustment During the year	270,900.00	<b>189,300.00</b>	229,800.00	<b>262,200.00</b>
b)	<b>Vehicle/Computer Advance to the Staff as per O.B.</b>	390,870.00		395,290.00	
	Add during the year	270,000.00		299,000.00	
	Adjustment During the year	265,800.00	<b>395,070.00</b>	303,420.00	<b>390,870.00</b>
c)	<b>House Building Adv. as per O. B.</b>	730,380.00		426,160.00	
	Add during the year			375,000.00	
	Adjustment During the year	166,780.00	<b>563,600.00</b>	70,780.00	<b>730,380.00</b>
d)	<b>Temporary Advance as per O. B.</b>	5,132,081.00		775,000.00	
	Add during the year	-		5,132,081.00	
	Adjustment During the year	-	<b>5,132,081.00</b>	775,000.00	<b>5,132,081.00</b>
	<b>Total C/F</b>		<b>65,904,517.10</b>		<b>84,690,750.03</b>

DESCRIPTION		Current Year 2015-16		Previous year 2014-15	
	Total B/F		65,904,517.10		84,690,750.03
2.	<b>ADVANCES TO:</b>				
(a)	HSCL as per O. B.	-		10,946,831.00	
	Add during the year	9,350,000.00		-	
	Adjustment During the year	-	9,350,000.00	10,946,831.00	-
(b)	Purvanchal Vidyut Vitaran Nigam	-		17,508,213.00	
	Add during the year	-		-	
	Adjustment During the year	-	-	17,508,213.00	-
3.	<b>SECURITY DEPOSITS:</b>				
(a)	Telephone Deptt	22,410.00		22,410.00	
(b)	UEDD III/Vth/VI	762,634.00			
	Adding during the year			762,634.00	
(c)	Nagar-mahapalika	25.00	785,069.00	25.00	785,069.00
	<b>TOTAL Rs.</b>		<b>76,039,586.10</b>		<b>85,475,819.03</b>

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES, SARNATH, VARANASI**  
(Deemed University)

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2016**

(Amount-Rs.)

<b>SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES</b>	<b>Current Year 2015-16</b>		<b>Previous Year 2014-15</b>	
1) Income from Sales/Services				
(a) Electricity recovery	526,858.00		306,903.00	
(b) Licence fees	156,226.00		130,955.00	
(c) Interest on Scooter loans	88,039.00		45,096.00	
(d) Income from Examination	167,163.00		119,650.00	
(e) Interest on H.B.A. Loan	141,000.00		44,000.00	
(f) Sale of Old Assets	-		355,342.00	
<b>Total Schedule-12</b>		<b>1,079,286.00</b>		<b>1,001,946.00</b>
<b>SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES</b>				
1) Grant from Ministry of Culture, Deptt. of Culture, New Delhi				
<b>(a) Under Non-Plan (head 36 &amp; 31)</b>				
Unspent Balance of Previous year 2014-15	143,790,393.00		172,796,484.00	
University Income/Recoveries of the year 2015-16(Remaining)	17,309,606.17		3,516.38	
<b>TOTAL GRANT</b>	<b>162,634,701.17</b>		<b>1,915,736.00</b>	
Less Capital Expenditure	468,000.00		<b>174,715,736.38</b>	
Less unspent balance of the year 2015-16	32,115,846.48	130,050,854.69	944,000.00	
<b>(b) Under Plan (head 36, 31 &amp; 35)</b>			17,309,606.17	156,462,130.21
Refund of Advance by HSCL	61,125,513.00		129,943,005.00	
Unspent Balance of Previous year 2014-15	-		6,970,000.00	
<b>TOTAL GRANT</b>	<b>106,249,999.42</b>		56,994.42	
Less Capital Expenditure	40,455,504.00		<b>136,969,999.42</b>	
Less unspent balance of the year 2015-16	9,941,998.42	55,852,497.00	51,935,841.13	
<b>(c) NER Project</b>			45,124,486.42	39,909,671.87
Unspent Balance of Previous year 2014-15	-		-	
<b>TOTAL GRANT</b>	<b>15,615.00</b>		1,189,305.00	
Less Capital Expenditure	<b>15,615.00</b>		<b>1,189,305.00</b>	
Less unspent balance of the year 2015-16	-	15,615.00	-	
<b>Grant received during the year under UGC Gen. &amp; Merged schemes</b>			15,615.00	1,173,690.00
Unspent Balance of Previous year 2014-15	-		-	
<b>TOTAL GRANT</b>	<b>847.00</b>		1,841,162.00	
Less Capital Expenditure	<b>847.00</b>		<b>1,841,162.00</b>	
Less unspent balance of the year 2015-16	-		1,450,846.00	
<b>Grant received during the year from the UGC for Area Study Plan</b>		847.00	847.00	389,469.00
Unspent balance of UGC Previous year 2014-15	-		-	
<b>TOTAL GRANT</b>	<b>950,000.00</b>		950,000.00	
Less Capital exp.	<b>950,000.00</b>		<b>950,000.00</b>	
Less unspent balance of the year 2015-16	-		-	
<b>Total C/F</b>	<b>950,000.00</b>		950,000.00	
		<b>185,919,813.69</b>		<b>197,934,961.08</b>

	Current Year 2015-16		Previous Year 2014-15	
	Total B/F			
		185,919,813.69		197,934,961.08
<b>Fund received from the Office of the H.H. Dalai Lama</b>	114,000.00		114,000.00	
Add: Unspent Balance of the year 2014-15	-		-	
Less: Unspent Balance of the year 2015-16	-	114,000.00	-	114,000.00
<b>Fund of Smith /Tasmania Collage</b>	-		-	
Add: Unspent Balance of the year 2014-15	37,905.60		37,905.60	
Less: Unspent Balance of the year 2015-16	37,905.60	-	37,905.60	-
<b>Fund of Smith /Tasmania Collage With FCRA Account 1</b>	500,116.00		1,840,580.00	
Add: Unspent Balance of the year 2014-15	109,960.00		-	
Less: Unspent Balance of the year 2015-16	-	610,076.00	109,960.00	1,730,620.00
<b>Income from Interest of Endowment fund</b>	134,666.00		-	
Add: Unspent Balance of the year 2014-15	-		14,954.00	
Less: Unspent Balance of the year 2015-16	104,653.00	30,013.00	-	14,954.00
<b>Interest of Corpus Kosh</b>	900,000.00		900,000.00	
Add: Unspent Balance of the year 2014-15	726,465.00		270,455.00	
Less: Unspent Balance of the year 2015-16	1,000,908.00	625,557.00	726,465.00	443,990.00
<b>GRANT TOTAL SCHEDULE-13</b>		<b>187,299,459.69</b>		<b>200,238,525.08</b>
<b>SCHEDULE 16 - INCOME FROM SALE OF BOOK</b>	-	-	-	-
<b>Total of Schedule -16</b>				
<b>SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED</b>				
(1) Interest from Bank on SB Account	4,461,654.00		2,098,625.00	
<b>Total of Schedule -17</b>		<b>4,461,654.00</b>		<b>2,098,625.00</b>
<b>SCHEDULE 18 - OTHER INCOME (Misce. Income)</b>	374,092.34		506,158.68	
<b>Total of Schedule -18</b>		<b>374,092.34</b>		<b>506,158.68</b>
<b>SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES</b>				
<b>(A) Salaries &amp; Allowances</b>				
Pay & Allowances	102,647,224.00		109,521,005.00	
L.T.C./H.T.C. Payments	558,296.00		706,831.00	
Medical re-imburement	1,101,146.00		961,256.00	
Children Education Allowance	715,128.00		480,155.00	
Compensatory Allowance	10,754.00		13,137.00	
Filling of Vancant Posts	-		5,297,460.00	
Pay & Allowances of Plan Posts	18,597,003.00		10,292,996.00	
<b>Total Schedule -20</b>		<b>123,629,551.00</b>		<b>127,272,840.00</b>

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	Current Year 2015-16		Prervious Year 2014-15	
	(B) Maintenance & Contingencies			
Pension & Gratuity	12,068,451.00		13,692,307.00	
Temporary & Contractual Services	-		2,314,304.00	
Wages & Garden	371,084.00		1,775,314.00	
Scholarship	3,396,950.00		3,582,400.00	
Educational Tour A/C	579,432.00		649,958.00	
Purchase of Medicine	327,057.00		816,589.00	
Maintenance of Equipments	669,094.00		740,483.00	
Repair & Maintenance of building	-		102,492.00	
Staff Vehicles-Maintenance & Fuel	221,184.00		372,269.00	
Diesel for Gen. Set.	89,616.00		465,004.00	
Purchase of Electrical goods	-		703,628.00	
Electric Expenditure	7,115,469.00		6,258,600.00	
Telephone Exp.	59,800.00		110,835.00	
Examination	1,531,556.00		1,378,980.00	
Maintenance & Infrastructural Develop. of Sowa Rigpa	-		74,715.00	
Travelling Exp.	826,222.00		455,561.00	
Lecture Series	114,943.00		78,606.00	
Audit Fees/Printing	206,520.00		-	
Cultural Programme	42,231.00		371,602.00	
Membership AIU/ACU/IIC	116,915.00		108,427.00	
Academic Exchange Programme	274,890.00		333,556.00	
Stationary & Printing A/C	1,014,944.00		886,022.00	
Postage	36,085.00		33,157.00	
Misc., Consumable, VIP Visit	519,002.03		305,179.89	
Advertisement	115,200.00		19,000.00	
Annual Function/Convocation	445,630.00		-	
Games & Sports	300,768.00		313,807.00	
Legal Expenditure	75,500.00		197,534.00	
Students Camping	325,387.00		301,115.00	
Rents & Taxes	89,409.00		89,409.00	
Interest paid on Bank Loan of UBI	-	30,933,339.03	58,162.00	36,589,015.89
<b>Total C/F</b>		<b>30,933,339.03</b>		<b>36,589,015.89</b>

PLAN	Total B/F	Current Year 2015-16		Previous Year 2014-15	
		30,933,339.03		36,589,015.89	
Dictionary Unit		46,621.00		-	
Development of Library Maintenance		4,664,903.00		2,474,318.00	
Rare Buddhist Texts Research Unit		84,816.00		63,551.00	
Restoration & Translation Unit		-		522,638.00	
Furniture and Equipments (Maintenance)		8,508,248.00		2,729,308.00	
Other Plan Activities		2,052,078.00		656,412.00	
Promotion of Intellectual contact Exchange of scholars, Conferences & Seminars		191,940.00		1,324,139.00	
Buddhis Festival		2,685,304.00		-	
Unassigned amounts		1,186,001.00		540,133.00	
Repair & Maintenance of Building		15,438,900.00		20,589,193.00	
Tawang Project		785,778.00		-	
Publication & Printing		876,562.00		-	
Establishment of Branches in Bhuntar		-		326,964.00	
Expansion of Existing dept.& induction of Classical and Modern Languages		-		-	
Development of Faculty of Sowa Rigpa.		603,597.00		249,388.00	
Development of Faculty of Shilpa Vidya		130,746.00		15,233.00	
Development of Library (Books , E.Books & Magzines) (A)		-		125,398.87	
Furniture & Equipment (A)		-	68,188,833.03	-	66,205,691.76
Project work of Medicinal Plant at Tawang in NER		15,615.00	15,615.00	1,173,690.00	1,173,690.00
<b>Exp. under U.G.C. 12th Plan Development Scheme</b>					
Conference/ Seminar/ Workshops.		-		300,000.00	
Furniture & Equipments (M)		-	-	89,469.00	389,469.00
<b>Non Budgetary Expenditure</b>					
Refund of H.H. Dalai Lama Fund		114,000.00		114,000.00	
Expenditue of Preeti Endowment Fund Interest		30,013.00		14,954.00	
Expenditure of Corpus Interest		625,557.00		443,990.00	
Refund of Fund Tasmania/ Smith collage.		610,076.00		1,730,620.00	
Refund of NER Project		847.00		-	
Refund of I.C.P.R. fund.		-	1,380,493.00	-	2,303,564.00
<b>Total Schedule-21</b>			<b>69,584,941.03</b>		<b>70,072,414.76</b>
Depreciation charged (as per schedule 8)		26,898,899.00	26,898,899.00	13,072,389.25	13,072,389.25

Schedules forming part of Annual Financial Statements of Central University of Tibetan Studies,  
Sarnath, Varanasi for the year 2015-16

## SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### 1. Accounting Policies-

#### 1. Accounting Convention

The financial statements are prepared under the historical cost convention on the actual basis, unless stated otherwise.

#### 2. The University is broadly following the ‘Uniform Format of Accounting’, prescribed for The Central Autonomous Bodies by the Ministry of Finance, Government of India from the financial year 2002-03 for drawing the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and other Schedules.

#### 3. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at net cost after depreciation.

Fixed Assets received by way of non-monetary grants (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at value stated.

Government grants in the nature of contribution towards capital cost of setting up of projects are treated as Capital/Building Fund.

#### 4. Investments

Long Term Investments are valued at cost.

#### 5. Revenue Recognition

Revenue including Government Grant is accounted for on cash basis. Interest on G.P.F. /C.P.F. is accounted on accrual basis.

6. **Expenditure**

The revenue expenditure is accounted for on accrual basis.

7. **Depreciation**

The depreciation is provided on the Straight Line Method as per the rates specified in Schedule II under the provision of the Companies Act, 2013.

8. Policy on allocation/apportionment of common expenditure to various activity/profit centres. No common expenditure incurred in the University.

9. **Terminal Benefits**

1. Gratuity Scheme is applicable as per The Central Government and UGC notification.

2. Leave encashment benefit to the employees has been assessed and paid on actual basis & gratuity/pension liability has been assessed and demanded in the Budget of the University on yearly basis.

10. **Government Grants/Subsidies:**

1. Government grants in the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

2. Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

3. Government grants/subsidies are accounted on realization basis.

Sd.

(K.N. SHUKLA)  
In-charge (Accounts)

Sd.

(CA HARI N. SINGH BISEN)  
For Bisen & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 017192N  
Internal Auditor

Sd.

(DR. DEO RAJ SINGH)  
Registrar

Sd.

(PROF. NGAWANG SAMTEN)  
Vice Chancellor

Schedules forming part of Annual Financial Statements of Central University of Tibetan Studies,  
Sarnath, Varanasi for the year 2015-16

## SCHEDULE 25 – CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS

### 1. Capital Commitments

ESTIMATED value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) is lacs Rs. Nil (Previous year Rs. Nil).

### 2. Currents Assets, Loans and advances,

In the opinion of the University, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

### 3. Taxation

In view of the tax exempt status of the University under Income Tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

### 4. Foreign Currency Transactions

#### 4.1 Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis:

	Amount (Rs.)	
	Current Year	Previous Year
- Purchase of finished Goods	NIL	NIL
- Raw Materials & Components (including in transit)	NIL	NIL
- Capital Goods	NIL	NIL
- Stores, Spares and Consumables	NIL	NIL

CUTS. Employees' G.P.F. /C.P.F. financial statements of Receipt & Payments are enclosed (actual basis).

CUTS. Employees' G.P.F./C.P.F. financial statements shown in the Balance Sheet on accrual basis.

Sd.

(K.N. SHUKLA)  
In-charge (Accounts)

Sd.

(CA HARI N. SINGH BISEN)  
For Bisen & Associates  
Chartered Accountants  
FRN: 017192N  
Internal Auditor

Sd.

(DR. DEO RAJ SINGH)  
Registrar

Sd.

(PROF. NGAWANG SAMTEN)  
Vice Chancellor

नोट - "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखित पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेज़ी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"।

### केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी के वर्ष 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष का भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

1. हमने केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय, प्राप्तियाँ और भुगतान खातों की महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 धारा 20(1) के तहत संवीक्षा की। यह लेखा-परीक्षा वर्ष 2015-16 तक के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय वक्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय का प्रबन्धन जिम्मेदार है। हमारी जम्मेदारी इन वित्तीय वक्तव्यों पर लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने की है।
2. प्रस्तुत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में- लेखा मानकों, प्रदर्शन पहलुओं, सर्वोत्तम प्रचलित अभ्यास आदि के आधार पर खातों की व्यवस्था एवं वर्गीकरण के सम्बन्ध में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी समाहित है। वित्तीय लेनदेन से सम्बन्धित कानून, नियम और विनियम (औचित्य तथा नियमितता) के अनुपालन तथा कार्य निष्पादन दक्षता आदि विषयों पर, यदि कोई है, निरीक्षण प्रतिवेदन-नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन द्वारा अलग से रिपोर्ट किए जाते हैं।
3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा-परीक्षण किया है। इन मानकों से अपेक्षा की जाती है कि हम लेखा-परीक्षा योजनाबद्ध तरीके से इस आशय के साथ करें कि जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त हों। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जाँच राशि और वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों का परीक्षण शामिल होता है। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण व्यय अनुमानों का आकलन, वित्तीय-विवरणिका के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी इस राय के समर्थन में उचित आधार प्रदान करेगी।
4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि-
  - (1) हमने अपनी जानकारी और विश्वास के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक समस्त सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किया है।
  - (2) प्रस्तुत प्रतिवेदन से सम्बन्धित तुलनपत्र, आय एवं व्यय- प्राप्तियाँ और भुगतान खातों के प्रारूप वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदि प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

(3) हमारे विचार में, विश्वविद्यालय के खाता-बही और अन्य सम्बन्धित अभिलेख- जिनका हमने परीक्षण किया, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय नियमावली के नियम 45 के अन्तर्गत अनुरक्षित है।

(4) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -

**(अ) तुलन-पत्र (बैलेन्स-शीट)**

**(अ-1) फिक्सड परि-सम्पत्ति रू. 44.28 करोड़**

(अ.1. 1) रू. 1.54 करोड़ का व्यय पुनर्निर्माण पर किया गया है। इसे पूँजीगत व्यय में न दर्शाकर राजस्व (रेवेन्यु) व्यय में दर्शाया गया है। जिससे आय एवं व्यय के अतिरेक में रू.1.54 करोड़ कमी जिसके फलस्वरूप स्थिर सम्पत्ति एवं पूँजी कोष के अन्तर्गत भी कमी दर्शायी गयी है। इसे पूर्व वर्ष के रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था।

(अ.1. 2) इसमें लिफ्ट के अवमूल्यन के मूल्य रू. 3.23 लाख शामिल नहीं है, जिसके फलस्वरूप स्थिर पूँजी और पूँजी कोष के अन्तर्गत रू. 3.23 लाख की कमी दर्शायी गयी है।

(अ.1. 4.) विश्वविद्यालय ने रू. 85.08 लाख रुपये की फनीचर एवं अन्य सम्पत्ति अवाप्त की है, इसे पूँजीगत व्यय में दर्शाने के बजाय राजस्व (रेवेन्यु) व्यय के रूप में समायोजित की है। इसके फलस्वरूप अतिरेक एवं स्थिर सम्पत्ति में कमी दर्शायी गयी है।

**(अ-2) इयरमार्कड- इनडाउमेंट फंड रू. 4.76 करोड़**

इसमें रू. 4.30 करोड़ भी सम्मिलित है जो उस अनुदान का व्यय नहीं किया गया बकाया है जिसे वर्तमान देनदारियों में दर्शाना चाहिए था। इसके फलस्वरूप इयरमार्कड- इनडाउमेंट फंड में रू. 4.30 करोड़ अधिक दर्शाया गया है और इतना ही वर्तमान देनदारियों में कमी दर्शायी गयी है।

**(ब) आय एवं व्यय खाता**

इसमें अवमूल्यन के रू. 8.02 लाख शामिल नहीं है जो 11.88 प्रतिशत वार्षिक के दर से छह वर्ष का जो सन् 2011 को रू.11.25 लाख के लिफ्ट अवसि का है। जिसके फलस्वरूप अवमूल्यन रू. 8.02 लाख कम दर्शाया है और अतिरेक में भी कम दर्शाया है।

**(स) सामान्य**

लेखा-मानक-15 के आधार पर बीमांकिक आवश्यक सेवानिवृत्ति लाभ का विश्वविद्यालय ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

**(द) अनुदान सहायता**

मुख्यतः विश्वविद्यालय संस्कृति मन्त्रालय, भारत सरकार के अनुदान-सहायता पर संचालित है। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2015-16 में रू. 21.23 करोड़ ( गैर योजनान्तर्गत रू. 15.12 करोड़ तथा योजनान्तर्गत रू. 6.11 करोड़) प्राप्त किया है। प्रारम्भिक अवशेष रू. 6.34 करोड़ (योजनागत रू. 4.51 करोड़+ यूजीसी बारहबीं योजना रू. 0.10 करोड़+ गैर योजनागत रू. 1.73 करोड़) के साथ कुल रू. 27.57 करोड़ (योजनागत रू. 10.62 करोड़ + गैर योजनागत रू. 16.85 + यूजीसी बारहबीं योजना रू. 0.10) उपलब्ध था। जिसमें से विश्वविद्यालय ने रू. 23.27 करोड़ (गैर योजनागत रू. 13.64 करोड़+योजनागत रू. 9.63 करोड़) का उपभोग किया है और दिनांक 31 मार्च, 2016 तक अप्रयुक्त रू. 4.30 करोड़ ( गैर योजनागत रू. 3.21 करोड़ + योजनागत रू. 0.99 करोड़ + यूजीसी बारहबीं योजना रू. 0.10 करोड़) शेष छोड़ दिया।

5. पूर्व अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों की विषयवस्तुके सन्दर्भ में हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन-पत्र (बैलेंस-शीट) एवं आय-व्यय खाता, प्राप्ति तथा भुगतान खाता जो इस प्रतिवेदन से सम्बन्धित है, लेखा पुस्तकों के मिलान के आधार पर है।
6. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचनाओं एवं हमें प्रदान किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण को लेखांकन नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणियों एवं उपर्युक्त के महत्वपूर्ण विषयवस्तुओं के मामलों के सन्दर्भ में एवं अन्य मामले संलग्नकों के अन्तर्गत, जो इस आडिट रिपोर्ट से सम्बन्धित हैं, सत्य एवं उचित है, जो भारत में मान्य सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त के अनुरूप है।

(अ) 31.03.2016 को केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी के बैलेंस-शीट से सम्बन्धित है, और

(ब) आय एवं व्यय खाता के घाटे (कमी) के सम्बन्ध में, उक्त वर्ष की समाप्ति की तिथि तक से सम्बन्धित है।

भारत के लियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए तथा की ओर से

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 31.10. 16

हस्ताक्षर अस्पष्ट

प्रधान निदेशक सम्प्रेक्षा (केन्द्रीय)

### संलग्नक

#### 1. आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

विश्वविद्यालय का अपना आन्तरिक ऑडिट का प्रकोष्ठ नहीं है। फिर भी वर्ष 2015-16 का आन्तरिक ऑडिट चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा कराया गया है।

#### 2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

विश्वविद्यालय के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमी परिलक्षित होता है -

- वाउचरों में संख्या तथा दिनांक नहीं है। अतः केश-बुक में भी वाउचर संख्या दर्ज नहीं किये गये हैं।
- विश्वविद्यालय ने ग्रेडेशन लिस्ट नहीं बनाया है /वरिशठता सूची और पद-धारक पंजिका (कर्मचारियों के कर्तव्य का वर्गीकरण) भी तैयार नहीं किया है।
- सम्पत्ति-सूची का अन्तिम बार सन् 2011-12 को भौतिक सत्यापन सम्पन्न किया है।

#### 3. स्थिर सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन का सिस्टम

वर्ष 2015-16 को सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। पिछले बार इसे वर्ष 2011-12 को किया गया था।

#### 4. सम्पत्ति सूची का भौतिक सत्यापन का सिस्टम

वर्ष 2015 -16 में सम्पत्ति सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। पिछले बार इसे वर्ष 2011-12 को किया गया था।

#### 5. सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता

विश्वविद्यालय वैधानिक देयों के भुगतान में नियमित है और पिछले छह महीनों के इनकम टैक्स रु. 1.34 लाख के अतिरिक्त कोई विशेष वैधानिक देय दिनांक 31.03 2016 तक नहीं है।

हस्ताक्षर अस्पष्ट

उपनिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

## केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय

(मान्य विश्वविद्यालय)

सारनाथ, वाराणसी 31 मार्च 2016

सूचकांक

क्र. संख्या		अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आय		
(i)	बिक्री से होने वाली आय	12	28
(ii)	अनुदान / सब्सिडी	13	28-29
(iii)	शुल्क / सदस्यताएँ	14	-
(iv)	निवेश से आय	15	-
(V)	रॉयल्टी से होने वाली आय, प्रकाशन आदि	16	29
(Vi)	अर्जित ब्याज	17	29
(Vii)	अन्य आय	18	29
(Viii)	वृद्धि / (कमी) भंडार और संपत्ति कार्य में प्रगति	19	-
2	व्यय		
(i)	स्थापना व्यय	20	29
(ii)	अन्य प्रशासनिक व्यय	21	30
(iii)	अनुदान, सब्सिडी आदि परव्यय	22	-
(iv)	व्याज	23	-
(V)	मूल्यहास (साल के अंत में नेट योग के लिए - अनुसूची 8)		22-24

## केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय

(मान्य विश्वविद्यालय)

सारनाथ, वाराणसी 31 मार्च 2016

सूचकांक

क्र. संख्या		अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	देनदारिया		
(i)	कारपस/पूजी कोष		
(ii)	भंडार और अधिशेष	1	16
(iii)	निर्धारित / बंदोबस्ती कोष	2	16
(iv)	सुरक्षित ऋण और देनदारी	3	17-19
(V)	असुरक्षित ऋण और देनदारी	4	20
(Vi)	अस्थिगत देनदारी	5	-
(Vii)	वर्तमान प्रावधान और देनदारिया	6	-
2	संपत्ति	7	21
(i)	अचल संपत्ति (मूल्यह्रास के बाद)		
(ii)	निवेश से निर्धारित / बंदोबस्ती कोष	8	22-24
(iii)	अन्य निवेश	9	-
(iv)	चालू परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम आदि	10	25
(V)	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों	11	26-27
(Vi)	आकस्मिक देनदारियों	24	-
		25	-

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आर्थिक-चिट्ठा (बैलेन्स-शीट)

	सूची	(धनराशि) वर्ष 2015-16	(धनराशि) वर्ष 2014-15
पूँजीगत निधि व दायित्व			
मण्डिबन्ध/पूँजीगत निधि	1	101,672,910.98	99,774,592.98
संचित और अवशेष	2	470,788,247.96	458,026,989.96
चिहिनत/अक्षयनिधि	3	47,581,328.10	67,483,240.03
सुरक्षित ऋण व लेनदारियाँ	4	-	0.00
असुरक्षित ऋण व लेनदारियाँ	5	-	0.00
भूगतान योग्य सम्मानीय दायित्व	6	-	0.00
वर्तमान दायित्व और विविध देनदारियाँ	7	133,438,232.30	111,724,579.80
<b>योग</b>		<b>753,480,719.34</b>	<b>737,009,402.77</b>
<b>सम्पत्तियाँ</b>			
स्थाई सम्पत्तियाँ (हास के बाद शुद्ध धनराशि)	8	442,787,188.94	439,095,569.94
चिहिनत निधियों का विनियोग	9	-	-
अन्य विनियोग	10	234,653,944.30	212,438,013.80
वर्तमान सम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम इत्यादि	11	76,039,586.10	85,475,819.03
विविध व्यय			
महत्वपूर्ण एकाउन्टिंग कार्य नीति	24	-	0.00
विविध दायित्व व वित्तीय टिप्पणियाँ	25	0	0.00
<b>योग</b>		<b>753,480,719.34</b>	<b>737,009,402.77</b>

ह.अ.  
(के.एन. शुक्ला)  
कार्यकारी अनु.अ. (वित्त)

ह.अ.  
(सी.ए. हरि एन. सिंह बिसेन)  
फार बिसेन एण्ड एसोसिएट  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट  
एफ.आर.एन.-017192एन.  
इन्टर्नल आडीटर

ह.अ.  
(डॉ. देवराज सिंह)  
कुलसचिव

ह.अ.  
(प्रो. नवांग समतेन)  
कुलपति

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी

(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आय तथा व्यय का विवरण

आय	सूची	(धनराशि)	(धनराशि)
		वर्ष 2015-16	वर्ष 2014-15
विक्री से प्राप्त आय	12		
अनुदान/सब्सिडी	13	1,079,286.00	1,001,946.00
फीस/चंदा	14	187,299,459.69	200,238,525.08
विनियोग से प्राप्त आय	15		-
रॉयल्टी व पुस्तकों के प्रकाशन से आय	16		-
अर्जित ब्याज	17		0.00
अन्य आय	18	4,461,654.00	2,098,625.00
तैयार सामान के स्टॉक में बढ़ोतरी/घटोतरी	19	374,092.34	506,158.68
	<b>योग (अ)</b>	<b>193,214,492.03</b>	<b>203,845,254.76</b>
व्यय			
स्थापन्न व्यय	20		
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	123,629,551.00	127,272,840.00
अनुदान पर किया गया व्यय	22	69,584,941.03	70,072,414.76
ब्याज भुगतान	23		
सम्पत्तियों का ह्रास (सूची 8 के अनुसार)			
	<b>योग (ब)</b>	<b>26,898,899.00</b>	<b>13,072,389.25</b>
व्यय का आय पर आधिक्य (अ-ब) (ब-अ)		<b>220,113,391.03</b>	<b>210,417,644.01</b>
विशेष संचित हेतु हस्तान्तरण		(26,898,899.00)	(6,572,389.25)
सामान्य संचय से हस्तान्तरण			
योग अधिक आय/अधिक व्यय पूंजीगत व्यय हेतु			
विभिन्न सैद्धान्तिक एकाउन्टिंग नीति	24		
खातों पर अनुसांगिक दायित्व और टिप्पणियाँ	25		

ह.अ.

(के.एन. शुक्ला)  
कार्यकारी अनु.अ. (वित्त)

ह.अ.

(सी.ए. हरि एन. सिंह बिसेन)  
फार बिसेन एण्ड एसोसिएट  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट  
एफ.आर.एन.-017192एन.  
इन्टर्नल आडीटर

ह.अ.

(डॉ. देवराज सिंह)  
कुलसचिव

ह.अ.

(प्रो. नवांग समतेन)  
कुलपति

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का प्राप्ति व भुगतान-विवरण

प्राप्ति	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15		भुगतान	विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2014-15
	धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि				
प्रारम्भिक शेष						योजनेतर		
केनरा बैंक में अवशेष जमा (एफ.सी. नं. 1)	492,829.98		382,869.98			(अ) वेतन और भत्ते		
यूनियन बैंक में अवशेष जमा (एस.बी. नं.)	64,774,191.19		4,021,558.40			वेतन एवं भत्ते	102,647,224.00	109,521,005.00
नकद रोकड़	204,588.00	65,471,609.17	495.00	4,404,923.38		वेतन के निमित्त ऋण का भुगतान	-	6,500,000.00
						एल.टी.सी./एच.टी.सी.	558,296.00	706,831.00
						कर्मचारी चिकित्सा व्यय	1,101,146.00	961,256.00
						कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षा-भत्ता	715,128.00	480,155.00
						त्यौहार अग्रिम	198,000.00	270,000.00
						कर्मचारी वदी पर व्यय	-	-
अनुदान						अतिरिक्त कार्य भत्ता	10,754.00	13,137.00
वर्ष 2014-15 में						रिक्त पदों की पूर्ति	-	5,297,460.00
भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के						योग, मद- 36	105,230,548.00	123,749,844.00
संस्कृति विभाग, पुरातत्व भवन, जी. पी.ओ.						(ब) रखरखाव एवं विविध व्यय		
काम्प्लेक्स						पेशन एण्ड ग्रेच्युटी	12,068,451.00	13,692,307.00
नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान			139,998,325.00			भवन निर्माण अग्रिम	-	375,000.00
योजनेतर, मद-36	118,749,844.00	143,790,393.00	32,798,159.00	172,796,484.00		वाहन, स्कूटर व कम्प्यूटर अग्रिम पर	270,000.00	299,000.00
योजनेतर, मद-31	25,040,549.00		20,000,000.00			रिक्त पदों पर अस्थाई कर्मचारियों	-	2,314,304.00
योजनान्तर्गत, मद-36	9,042,996.00		32,443,036.00			की नियुक्ति पर व्यय	-	-
योजनान्तर्गत, मद-31	42,494,981.00		77,499,969.00	129,943,005.00		प्रोफेशनल ट्रेनिंग व विजिटिंग	-	-
योजनान्तर्गत, मद-35	9,587,536.00	61,125,513.00	-	-		पोफेसर पर व्यय	371,084.00	1,775,314.00
यू.बी.आई. से लिया गया सुरक्षित ऋण						बागयानी पर व्यय	3,396,950.00	3,582,400.00
एन. ई. आर. प्रोजेक्ट योजना, मद-31						छात्रवृत्ति	579,432.00	649,958.00
						यात्रा व्यय	327,057.00	816,589.00
अन्य प्राप्ति			506,158.68			दवा क्रय हेतु व्यय	669,094.00	740,483.00
विविध आय	374,092.34		119,650.00			संयन्त्रों के रखरखाव पर व्यय	-	102,492.00
परीक्षा से आय	167,163.00		44,000.00			भवन के मरम्मत एवं रखरखाव पर		
भवन अग्रिम पर प्राप्त ब्याज	141,000.00					व्यय	221,184.00	372,269.00
कार / वाहन / कम्प्यूटर अग्रिम पर प्राप्त ब्याज	88,039.00		45,096.00			योग	17,903,252.00	24,720,116.00
यू.बी.आई. के बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	4,461,654.00	5,231,948.34	2,098,625.00	2,813,529.68		योग आगे ले गये	105,230,548.00	123,749,844.00
योग आगे ले गये		275,619,463.51		309,957,942.06				

विवरण	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15		विवरण	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
	धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि		धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि
शेष आगे ले आये		275,619,463.51		309,957,942.06	शेष आगे ले आये		105,230,548.00		123,749,844.00
					योग		17,903,252.00		24,720,116.00
बिक्री से प्राप्त आय					जनरेटर सेट के डीजल पर व्यय		89,616.00		465,004.00
पुरानी सम्पत्ति के विक्रय से आय (ए.सी.)			355,342.00		विद्युत सामग्री क्रय पर व्यय		-		703,628.00
प्रकाशित पुस्तकों की विक्री	626,634.00	626,634.00	536,241.00	891,583.00	विद्युत व्यय		7,115,469.00		6,258,600.00
वसूली से प्राप्त आय					टेलीफोन पर व्यय		59,800.00		110,835.00
त्योहार अग्रिम वसूली	270,900.00		229,800.00		परीक्षा पर व्यय		1,531,556.00		1,378,980.00
स्कूटर अग्रिम वसूली	265,800.00		303,420.00		सोवा-रिग्पा विभाग के विकास पर		-		74,715.00
भवन अग्रिम ऋण से वसूली	166,780.00		70,780.00		यात्र पर व्यय		826,222.00		455,561.00
लाइसेन्स फीस वसूली	156,226.00		130,955.00		व्याख्यान माला पर व्यय		114,943.00		78,606.00
विद्युत बिल की वसूली से आय	526,858.00		306,903.00		मुद्रण व अंकेक्षण शुल्क		206,520.00		-
विगत वर्ष के अग्रिम समायोजन से वसूली		1,386,564.00	775,000.00	1,816,858.00	सांस्कृतिक कार्यक्रम		42,231.00		371,602.00
					सदस्यता शुल्क ए.आई.यू.		116,915.00		108,427.00
					सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम		274,890.00		333,556.00
					स्टेशनरी और छपाई		1,014,944.00		886,022.00
					पत्रपेषण पर व्यय		36,085.00		35,157.00
					विविध आय		519,002.03		305,179.89
					विज्ञापन पर व्यय		115,200.00		17,000.00
					वार्षिक उत्सव/दीक्षान्त समारोह पर		445,630.00		-
					खेलकूद		300,768.00		313,807.00
					कानूनी व्यय		75,500.00		197,534.00
					ग्रीष्म-शरद कैम्पिंग		325,387.00		301,115.00
					जल-कर का भुगतान		89,409.00		89,409.00
					नकद हाथ में		-		-
					यू.बी.आई. के ऋण पर दिया गया ऋण		-		58,162.00
					योग, मद- 31		31,203,339.03		37,263,015.89
					योजनान्तर्गत-				
					(अ) वेतनमान व भत्ते				
					वेतन व भत्ते		18,597,003.00		10,292,996.00
					योग, मद- 36		18,597,003.00		10,292,996.00
शेष आगे ले गये		277,632,661.51		312,666,383.06	योग		-		-
					शेष आगे ले गये		155,030,890.03		171,305,855.89

विवरण	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15		विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2014-15
	धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि		धनराशि	धनराशि
शेष आगे ले आये		277,632,661.51		312,666,383.06	शेष आगे ले आये	155,030,890.03	171,305,855.89
					योग	-	-
					(ब) योजनान्तर्गत-		
					शब्दकोश इकाई/इनसाइक्लोपीडिया		
					तिब्बती व संस्कृत में-	46,621.00	-
					ग्रन्थालय- विकास पर मरम्मत व रखरखाव व्यय-	4,664,903.00	2,474,318.00
					प्रकाशन व छपाई	1,662,903.00	2,799,116.00
					दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध इकाई पर व्यय	86,096.00	63,551.00
					पुनरुद्धार व अनुवाद अनुभाग पर व्यय	-	522,638.00
					फर्नीचर एवं साज-सज्जा पर व्यय	8,508,248.00	2,729,308.00
					अन्य योजनान्तर्गत क्रियाकलाप	2,052,078.00	656,412.00
					बुद्धिजीवियों के सम्पर्क में अभिवृद्धि, विद्वत् आदान-प्रदान तथा गोष्ठियों पर व्यय	191,940.00	1,324,139.00
					अहस्तांतरित धनराशि	1,186,001.00	540,133.00
					भवन के मरम्मत व रखरखाव पर व्यय	15,438,900.00	20,589,193.00
					बौद्ध महोत्सव	2,685,304.00	-
					अस्थायी अग्रिम		-
					नकद हाथ में		204,588.00
					(स) 12वीं पंचवर्षीय योजना में नई योजनाएं		
					तवाग योजना	785,778.00	-
					अन्तर बुद्धिस्ट संस्थान संयुक्त उपक्रम		-
					अन्तर विश्वविद्यालय संयुक्त उपक्रम		-
					एक्सटेंशन आफ लेक्चर एण्ड शार्ट टर्म कोर्स ऑन साइंस टू इनेबल द स्टूडेंट टू सी अवर एन्सियेन्ट स्टडीज		-
					भुन्दुर शाखा स्थापना पर व्यय		326,964.00
					एक्सपेन्शन ऑफ एक्जिस्टिंग डिपार्टमेंट एण्ड इन्डकेशन ऑफ क्लासिकल व आधुनिक भाषा पर व्यय		
					सोवा-रिग्पा विभाग के विकास पर व्यय	603,597.00	249,388.00
					शिल्पविद्या विभाग के विकास पर व्यय	130,746.00	15,233.00
					योग, मद -31	38,043,115.00	32,494,981.00
शेष आगे ले गये		277,632,661.51		312,666,383.06	शेष आगे ले गये	193,074,005.03	203,800,836.89

विवरण	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15		विवरण	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
	धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि		धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि
शेष आगे ले आये		277,632,661.51		312,666,383.06	शेष आगे ले आये	193,074,005.03		203,800,836.89	
					(द) पूँजीगत कार्य/भवन योजना				
					(1) एस.एस.सी.एल. द्वारा भवन की लागत	2,408,643.00		9,261,951.00	
					(2) जमीन क्रय पर व्यय			2,508,096.00	
					(3) 1000 के.वी.एस. विद्युत संयन्त्र स्थापना पर व्यय			795,883.00	
					(4) 1000 के.वी.एस. विद्युत कनेक्शन पर जमा प्रतिभूति			-	
					(5) ग्रन्थालय विकास (ग्रन्थों का क्रय)	4,424,233.00		4,488,783.00	
					(6) फर्नीचर व साजसज्जा (सम्पत्ति) पर व्यय	23,485,007.00		26,870,742.00	
					(7) जनरेटर के लिये केन्द्रीय भण्डार के साथ अग्रिम जमा			5,132,081.00	
					(8) एच.एस.सी.एल. एजेन्सी के साथ जमा	9,350,000.00		-	
					योग मद-35	39,667,883.00		49,057,536.00	
					एन.ई.आर. योजना				
					नार्थ ईस्ट रीजन में औषधीय पौधशाला के विकास हेतु व्यय	15,615.00		1,173,690.00	
					योग मद-31	15,615.00		1,173,690.00	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त अनुदान-					विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत सामान्य व विलीनीकृत				
यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त सामान्य विकास एवं विलीनीकृत योजना हेतु अनुदान					यात्रा भता पर व्यय				
यू.जी.सी. (अध्ययन क्षेत्र योजना अनुदान)				950,000.00	सेमिनार/गोष्ठी पर व्यय			300,000.00	
					प्रकाशन व्यय				
					वार्षिक मरम्मत कार्य पर व्यय				
					विजिटिंग प्रोफेसर व रिसर्च स्कालर की नियुक्ति पर				
					भवन के रखरखाव व मरम्मत पर व्यय				
					इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी के विकास पर व्यय				
					एस.सी.एस.टी. छात्रों के क्रिया-कलापों पर व्यय				
					भवन निर्माण कार्य पर व्यय				
					पुस्तकों व पत्रिकाओं का क्रय				
					उपकरण क्रय			1,540,315.00	
					यूजीसी फंड की वापसी	847.00			
					योग	847.00		1,840,315.00	
शेष आगे ले गये		277,632,661.51		313,616,383.06	शेष आगे ले गये	232,758,350.03		255,872,377.89	

विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2014-15	विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2014-15
	धनराशि	धनराशि		धनराशि	धनराशि
शेष आगे ले आये	277,632,661.51	313,616,383.06	शेष आगे ले आये	232,758,350.03	255,872,377.89
बजट विहीन शीर्ष से आय			बजट विहीन व्यय		
एच.एस.सी.एल. द्वारा अग्रिम समायोजन (महिला छात्रावास)		10,946,831.00	एच.एस.सी.एल. द्वारा भवन का निर्माण (महिला छात्रावास)		3,976,831.00
पूर्वांचल विद्युत वितरण खण्ड के अग्रिम का समायोजन		17,508,213.00	पूर्वांचल विद्युत वितरण खण्ड के अग्रिम का समायोजन		17,508,213.00
यू.बी.आई. द्वारा प्राप्त बैंक ऋण	450,000.00		यू.बी.आई. द्वारा प्राप्त बैंक ऋण की अदायगी		-
आई.सी.पी.आर. नई दिल्ली द्वारा प्राप्त अनुदान	114,000.00	114,000.00	उच्च तकनीकी अध्ययन अरुणांचल प्रदेश द्वारा प्राप्त अनुदान-		-
परम पावन दलाई लामा कार्यालय द्वारा बी.एड. हेतु प्राप्त इन्डोमेन्ट कोष के सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	134,666.00		परम पावन दलाई लामा जी की धनराशि का भुगतान	114,000.00	114,000.00
कारपस कोष पर ब्याज	900,000.00	900,000.00	प्रीति इन्डोमेन्ट फण्ड पर ब्याज का व्यय	30,013.00	14,954.00
विदेशियों द्वारा प्राप्त अनुदान			कारपस कोष की धनराशि का सावधि जमा		-
स्मिथ कालेज से प्राप्त अनुदान			कारपस कोष ब्याज का व्यय	625,557.00	443,990.00
कारपस कोष के सावधि जमा से प्राप्त राशि		10,000.00	धर्मशाला द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति के धनराशि का भुगतान		-
सिक्कुरिटी एजेन्सी द्वारा जमानत जमा	8,000.00	5,000.00	प्राप्त दान धनराशि का भुगतान		-
अमानत जमा ग्रन्थालय पाठकों द्वारा			आई.सी.पी.आर. द्वारा प्राप्त अनुदान का सेमिनार पर व्यय	450,000.00	-
उच्च तकनीकी अध्ययन अरुणांचल प्रदेश द्वारा प्राप्त अनुदान			दान में प्राप्त धनराशि का सावधि जमा		-
स्मिथ कालेज से परियोजना के लिए प्राप्त अनुदान	475,000.00	1,840,580.00	स्मिथ कालेज द्वारा प्राप्त धनराशि का भुगतान		-
विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त अनुदान	25,116.00		अमानत जमा (ग्रन्थालय पाठकों द्वारा) का भुगतान	2,000.00	13,000.00
सोवा-रिग्पा विभाग से प्राप्त	1,500,000.00		स्मिथ कालेज द्वारा प्राप्त धनराशि का व्यय	610,076.00	1,730,620.00
			केनरा बैंक खाते में अवशेष धनराशि	382,869.98	492,829.98
			यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में अवशेष योग बजट विहीन मद	46,266,577.50	64,774,191.19
			सम्पूर्ण योग	48,481,093.48	89,068,629.17
सम्पूर्ण योग	281,239,443.51	344,941,007.06		281,239,443.51	344,941,007.06

ह.अ.  
(के.एन. शुक्ला)  
कार्यकारी अनु.अ. (वित्त)

ह.अ.  
(सी.ए. हरि एन. सिंह बिसेन)  
फार बिसेन एण्ड एसोसिएट  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट  
एफ.आर.एन.-017192एन.  
इन्टर्नल आडिटर

ह.अ.  
(डॉ. देवराज सिंह)  
कुलसचिव

ह.अ.  
(प्रो. नवांग समतेन)  
कुलपति

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भविष्यनिधि का प्राप्ति व भुगतान-विवरण

प्राप्ति

भुगतान

विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2014-15	विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2014-15
	धनराशि	धनराशि		धनराशि	धनराशि
प्रारम्भिक शेष			जी.पी.एफ. खाता		
जी.पी.एफ. खाते में अवशेष 30,62,860.80		1,173.80	जी.पी.एफ. खाते से किये गये भुगतान		
सी.पी.एफ. खाते में अवशेष 6,42,860		590.00	जी.पी.एफ. खाते से आवर्ती खाते में भुगतान	6,981,136.00	14,338,668.00
	3,705,720.80	1,763.80	जी.पी.एफ. फण्ड से सावधि निवेश	6,300,000.00	7,000,000.00
जी.पी.एफ. में कर्मचारी अंशदान	16,366,810.00	15,343,039.00	सी.पी.एफ. खाता		
जी.पी.एफ. खाते पर प्राप्त ब्याज	188,254.50	123,823.00	सी.पी.एफ. खाते से दिये गये ऋण का भुगतान	1,093,000.00	924,630.00
सी.पी.एफ. में कर्मचारी अंशदान	1,460,877.00	1,552,887.00	सी.पी.एफ. खाते से सावधि जमा		
सी.पी.एफ. खाते पर प्राप्त ब्याज	25,762.00	14,013.00	बैंक खाते में अवशेष		
सावधि/आवर्ती खाते से प्राप्त	8,804,904.00	8,933,493.00	जी.पी.एफ. खाते में 1,51,41,693.3	3,062,860.80	
			सी.पी.एफ. खाते में 10,36,499.00		
कुल योग	30,552,328.30	25,969,018.80	कुल योग	16,178,192.30	3,705,720.80
				642,860.00	
				30,552,328.30	25,969,018.80

ह.अ.

(के.एन. शुक्ला)  
कार्यकारी अनु.अ. (वित्त)

ह.अ.

(सी.ए. हरि एन. सिंह बिसेन)  
फार बिसेन एण्ड एसोसिएट  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट  
एफ.आर.एन.-017192एन.  
इन्टर्नल आडीटर

ह.अ.

(डॉ. देवराज सिंह)  
कुलसचिव

ह.अ.

(प्रो. नवांग समतेन)  
कुलपति

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी

(मान्य विश्वविद्यालय)

सोवा-रेग्पा विभाग

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में प्राप्ति व भुगतान-विवरण

भुगतान

विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2014-15	विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2014-15
	धनराशि	धनराशि		धनराशि	धनराशि
प्रारम्भिक अवशेष			दवा हेतु सामग्री का क्रय	350,677.00	372,262.00
नकद रोकड़		4,490.00	फार्मसी व हर्बल गार्डन पर किया गया व्यय	25,164.00	-
यू.बी.आई. खाता सं. 41630102010119425	1,277,377.84	848,305.80	वेतन	442,547.00	360,375.00
दवा विक्रय से आय	1,470,894.00	1,254,754.00	दैनिक वेतन कर्मचारियों का भुगतान		-
बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	56,613.00	36,335.00	बैंक द्वारा लिये गये सर्विस व्यय	410.96	540.32
गैस सब्सिडी से प्राप्त आय	888.72	1,053.36	मरम्मत व रखरखाव पर व्यय	20,311.00	-
बौद्ध महोत्सव	204,521.00		स्थानीय यात्रा पर किया गया व्यय	810.00	-
फिक्स्ड डिपॉजिट भुनाया	700,000.00		विविध व्यय	109,659.00	134,383.00
एफडी पर ब्याज प्राप्त	129,604.00		गैस एजेंसी प्रभार	1,240.00	-
			c.u.t.s. को भुगतान	1,500,000.00	
			अन्तिम शेष	-	-
			नकद रोकड़		
			यू.बी.आई. खाता सं. 416302010119425 का शेष	1,389,079.60	1,277,377.84
<b>कुल योग</b>	<b>3,839,898.56</b>	<b>2,144,938.16</b>	<b>कुल योग</b>	<b>3,839,898.56</b>	<b>2,144,938.16</b>

ह.अ.

(के.एन. शुक्ला)

कार्यकारी अनु.अ. (वित्त)

ह.अ.

(सी.ए. हरि एन. सिंह बिसेन)

फार बिसेन एण्ड एसोसिएट  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट  
एफ.आर.एन. -017192एन.  
इन्टर्नल आडीटर

ह.अ.

(डॉ. देवराज सिंह)

कुलसचिव

ह.अ.

(प्रो. नवांग समतेन)

कुलपति

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आर्थिक-चिट्ठा (बैलेन्स शीट)

सूची 1 - पूँजीगत/मणिवन्ध निधि	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
विगत वर्ष का शेष (दान रु.6,48,03,751.98 और ब्याज रु.2,85,65,064.00)	97,556,512.98		93,368,815.98	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	1,091,472.00		4,187,697.00	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	-	98,647,984.98	-	97,556,512.98
सोवा-रिगपा विभाग निधि	1,500,000.00			
सोवा-रिगपा विभाग का रिवाँलविंग फण्ड	2,218,080.00		2,053,220.00	
घटाया:- रिवाँलविंग फण्ड का सावधि जमा	(829,604.00)			
रिवाँलविंग फण्ड के सावधि पर प्राप्त ब्याज	136,450.00	3,024,926.00	164,860.00	2,218,080.00
योग		101,672,910.98		99,774,592.98
<b>सूची 2 - संचित व अवशेष</b>				
(क) पूँजीगत संचय (भूमि) विगत वर्ष का शेष	32,908,064.84		30,399,968.84	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़			2,508,096.00	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ		32,908,064.84	-	32,908,064.84
(ख) पूँजीगत संचय (भवननिधि) विगत वर्ष का शेष	305,121,396.32		291,882,614.32	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	2,408,643.00		13,238,782.00	
घटाया: अन्य सम्पत्ति से धनराशि	-		-	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	-	307,530,039.32	-	305,121,396.32
(ग) पूँजीगत संचय (वेस्ट वाटर सिस्टम) विगत वर्ष का शेष	6,464,900.00		6,464,900.00	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़ (भूल सुधार)			-	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ		6,464,900.00	-	6,464,900.00
(घ) पूँजीगत संचय (भूमिगत केबिल) विगत वर्ष का शेष	3,298,000.00		3,298,000.00	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़			-	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ		3,298,000.00	-	3,298,000.00
(ङ) पूँजीगत संचय (भगननिर्माण व भवन मरम्मत अग्रिम)				
विगत वर्ष का शेष			28,455,044.00	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़			-	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ			-	
(च) पूँजीगत संचय (अन्य सम्पत्तियाँ) विगत वर्ष का शेष	110,234,628.80		78,947,971.40	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	38,786,216.00		42,750,783.88	
घटाया: भवननिधि की धनराशि	1,534,702.00		4,891,737.23	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ			-	
घटाया: वर्ष का व्यय आधिक्य	26,898,899.00	120,587,243.80	6,572,389.25	110,234,628.80
योग		470,788,247.96		458,026,989.96

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आर्थिक-चिटठा (बैलेन्स शीट)

(Amount-Rs.)

सूची 3 - चिह्नित अक्षयनिधि	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
(क) प्रारम्भिक शेष (प्रो. के.एस. मूर्ति, प्रो. ए.के. सरन व प्रीति इण्डोमेन्ट फण्ड रु. 6,24,413.00 और ब्याज रु. 9,04,758.00)		1,529,171.00		1,529,171.00
विगत वर्ष का शेष	-			
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	-	1,529,171.00		1,529,171.00
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ				
(ख) योजनोत्तर मद-36 का अवशेष		16,250,155.50		1,674.50
विगत वर्ष का शेष		118,749,844.00		139,998,325.00
वर्ष के अन्तर्गत जोड़		-		-
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया सुरक्षित ऋण -		-		-
विश्वविद्यालय का वर्ष के अंतर्गत आय		105,230,548.00	29,769,451.50	123,749,844.00
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत व्यय-				
(ग) योजनोत्तर मद-31 का अवशेष		1,059,450.67		1,841.88
विगत वर्ष का शेष		25,040,549.00		32,798,159.00
वर्ष के अन्तर्गत जोड़		7,449,734.34		5,522,465.68
विश्वविद्यालय का वर्ष के अन्तर्गत आय		31,203,339.03	2,346,394.98	37,263,015.89
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ				
(घ) योजनान्तर्गत मद-36 का अवशेष		9,707,004.00		-
विगत वर्ष का शेष		9,042,996.00		20,000,000.00
वर्ष के अन्तर्गत जोड़		18,597,003.00	152,997.00	10,292,996.00
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ				
(ङ) योजनान्तर्गत मद-31 का अवशेष		5,018.93		56,963.93
विगत वर्ष का शेष		42,494,981.00		32,443,036.00
वर्ष के अन्तर्गत जोड़		38,043,115.00	4,456,884.93	32,494,981.00
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ				
(च) योजनान्तर्गत मद-35 का अवशेष		35,412,463.49		30.49
विगत वर्ष का शेष		9,587,536.00		77,499,969.00
वर्ष के अन्तर्गत जोड़				6,970,000.00
वर्ष के अन्तर्गत जोड़ (चेक निरस्तीकरण से आय)		39,667,883.00	5,332,116.49	49,057,536.00
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ			43,587,015.90	63,963,263.59
शेष आगे ले गये				

शेष आगे ले आये	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
		43,587,015.90		63,963,263.59
(छ) योजनान्तर्गत उत्तर-पूर्व परिक्षेत्र योजना के मद-31 का अवशेष				
विगत वर्ष का शेष	15,615.00		1,189,305.00	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	-		-	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	15,615.00	-	1,173,690.00	15,615.00
(ज) कारपस फण्ड का अवशेष				
विगत वर्ष का शेष	726,465.00		270,455.00	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	900,000.00		900,000.00	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	625,557.00	1,000,908.00	443,990.00	726,465.00
(झ) तस्मानिया विश्वविद्यालय (प्रो. जे. गारफील्ड) द्वारा प्राप्त धनराशि का अवशेष				
विगत वर्ष का शेष	37,905.60		37,905.60	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	-		-	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	-	37,905.60	-	37,905.60
(ञ) दान में प्राप्त धनराशि का अवशेष				
विगत वर्ष का शेष	505,001.00		505,001.00	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	-		-	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	-	505,001.00	-	505,001.00
(ट) विश्वविद्यालय अनुदान का 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवशेष				
विगत वर्ष का शेष	847.00		1,841,162.00	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़				
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	847.00	-	1,840,315.00	847.00
(ठ) विगत वर्ष का इन्डोमेन्ट धनराशि का अवशेष				
विगत वर्ष का शेष			14,954.00	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	134,666.00		-	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	30,013.00	104,653.00	14,954.00	-
(ड) धर्मशाला द्वारा प्राप्त धनराशि का अवशेष				
विगत वर्ष का शेष				
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	114,000.00		114,000.00	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	114,000.00	-	114,000.00	-
(ढ) अरुणाचल प्रदेश के हायल टेक्निकल एजुकेशन विभाग का अवशेष				
विगत वर्ष का शेष/वर्ष के अन्तर्गत जोड़	6,765.00		6,765.00	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	-	6,765.00	-	6,765.00
शेष आगे ले गये		45,242,248.50		65,255,862.19

	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
शेष आगे ले आये		45,242,248.50		65,255,862.19
(ण) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त एरिया स्टडी सेन्टर का अवशेष				
विगत वर्ष का शेष		-		
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	950,000.00		950,000.00	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ		950,000.00	-	950,000.00
(त) सोवा-रिगपा विभाग के रिवाल्विंग फण्ड बचत खाते का अवशेष				
विगत वर्ष का शेष	1,277,377.84		848,305.80	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	1,389,079.60		1,277,377.84	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	1,277,377.84	1,389,079.60	848,305.80	1,277,377.84
योग		47,581,328.10		67,483,240.03

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आर्थिक-चिटठा (बैलेंस-शीट)

सूची 4 - सुरक्षित ऋण व लेनदारियाँ	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, पैगम्बरपुर, वाराणसी द्वारा प्राप्त ऋण दायित्व				
प्रारम्भिक अवशेष			6,500,000.00	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़				
वर्ष के अन्तर्गत पुनर्भुगतान			6,500,000.00	
योग		-		-

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आर्थिक-चिट्ठा (बैलेन्स शीट)

सूची 7 - वर्तमान भुगतान व दायित्व	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
	(अ) कर्मचारियों के जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. बैलेन्स, बैंक व यू.टी.आई. विनियमानुसार-			
विगत वर्ष का सावधि जमा शेष	90,851,299.00		86,320,526.00	
वर्ष के अन्तर्गत सावधि जमा	16,392,389.00		45,284,217.00	
वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	14,757,850.00	92,485,838.00	40,753,444.00	90,851,299.00
विगत वर्ष का शेष-बचत खाता जी.पी.एफ./सी.पी.एफ.	3,705,720.80		1,763.80	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	26,846,607.50		25,967,255.00	
वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	14,374,136.00	16,178,192.30	22,263,298.00	3,705,720.80
प्रारम्भिक शेष निवेश पर अर्जित ब्याज	17,070,060.00		13,018,674.00	
वर्ष के अन्तर्गत अर्जित व्यय	9,479,761.00		4,051,386.00	
वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	1,879,119.00	24,670,702.00		17,070,060.00
योग		133,334,732.30		111,627,079.80
(ब) ग्रन्थालय के पाठकों से प्राप्त अमानत जमा				
विगत वर्ष का शेष	97,500.00		95,500.00	
वर्ष के अन्तर्गत जोड़	8,000.00		15,000.00	
घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ	2,000.00	103,500.00	13,000.00	97,500.00
योग (अ+ब)		133,438,232.30		111,724,579.80

## केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी

(मान्य विश्वविद्यालय)

## 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आर्थिक-चिट्ठा (बैलेंस-शीट)

सूची 8 - स्थायी सम्पत्तियाँ-

विवरण	सम्पूर्ण स्थिति					वर्ष के अन्तर्गत हास				(धनराशि रुपये में) वास्तविक स्थिति	
	हास दर (इन्ल्यू.) ही जी	वर्ष का आरम्भिक शेष 1.4.2015	वर्ष के अन्तर्गत जोड़ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत शेष 31.3.2016	वर्ष का आरम्भिक शेष 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत जोड़ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत शुद्ध योग 31.03.2016	वर्तमान वर्ष का शेष 31.03.2016	विगत वर्ष का शेष 31.03.2015
स्थाई सम्पत्तियाँ											
1. भूमि											
भूमि स्थायी सम्पत्ति (पंजीयन के अनुसार)		32,908,064.84			32,908,064.84						
2. भवन										32,908,064.84	32,908,064.84
भवन की लागत निम्नानुसार-											
(अ) के.लॉ.न. विभाग द्वारा	1.58%	40,343,914.51			40,343,914.51	5,939,890.12	637,434.00		6,577,324.12	33,766,590.39	34,404,024.39
(ब) लो.नि. विभाग द्वारा	1.58%	9,885,607.49			9,885,607.49	1,127,946.20	156,193.00		1,284,139.20	8,601,468.29	8,757,661.29
(स) राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवन की लागत	1.58%	10,140,000.00			10,140,000.00	1,492,926.00	160,212.00		1,653,138.00	8,486,862.00	8,647,074.00
(द) एच.एस.इन्ल्यू.सी.एल. द्वारा भवन की लागत	1.58%	24,181,412.00			24,181,412.00	2,530,432.00	382,066.00		2,912,498.00	21,268,914.00	21,650,980.00
(य) कन्स्ट्रक्शन व डिजाइन सर्विसेज यू.पी. जलनिगम द्वारा	1.58%	72,527,749.00			72,527,749.00	8,670,831.16	1,145,938.00		9,816,769.16	62,710,979.84	63,856,917.84
(र) एच.एस.सी.एल. के भवन निर्माण कार्य-प्रगति की लागत		146,025,343.00	1,503,835.00		147,529,178.00					62,710,979.84	63,856,917.84
विभागीय भवन-निर्माण सस्थान द्वारा	1.58%	747,367.82			747,367.82					147,529,178.00	146,025,343.00
बाउण्डरीवाल का निर्माण व विस्तार	1.58%	256,438.50	53,000.00		309,438.50	98,853.30	11,808.00		110,661.30	636,706.52	648,514.52
बास्केट बाल खेल मैदान का निर्माण	9.50%	100,564.00			100,564.00	23,636.06	4,889.00		28,525.06	280,913.44	232,802.44
वेस्ट वाटर सिस्टम	1.58%	6,464,900.00			6,464,900.00	14,805.98	9,554.00		24,359.98	76,204.02	85,758.02
फव्वारे की लागत	1.58%	913,000.00			913,000.00	844,739.77	102,145.00		946,884.77	5,518,015.23	5,620,160.23
भूमिगत इलेक्ट्रिक केबल	5.28%	3,298,000.00			3,298,000.00	111,182.90	14,425.00		125,607.90	787,392.10	801,817.10
3. मशीनरी व उपकरण						483,815.60	174,134.00		657,949.60	2,640,050.40	2,814,184.40
लिफ्ट			1,750,732.00		1,750,732.00						
ट्यूबेल	19.00%	336,000.00	851,808.00		1,187,808.00		166,319.00		166,319.00	1,584,413.00	
ट्रान्सफार्मर	9.50%	162,855.00			162,855.00	159,600.00	225,683.00		385,283.00	802,525.00	176,400.00
1000 के.वी.एस. सब स्टेशन का मूल्य	9.50%	5,016,490.00			5,016,490.00	77,356.82	15,471.00		92,827.82	70,027.18	85,498.18
ओरियन्ट फाउण्डेशन द्वारा प्रदत्त ग्रन्थालय को इन्टरनेट	15.83%	447,900.00			447,900.00		476,567.00		476,567.00	4,539,923.00	5,016,490.00
इन्टरनेट (ग्रन्थालय)	15.83%	1,248,700.00			1,248,700.00	212,751.40	70,903.00		283,654.40	164,245.60	235,148.60
शेष आगे ले गये		355,004,306.16	4,159,375.00		359,163,681.16	22,381,898.56	3,951,410.00		26,333,308.56	332,830,372.60	332,622,407.60

विवरण	सम्पूर्ण स्थिति					वर्ष के अन्तर्गत हास				वास्तविक स्थिति	
	हास दर (डब्ल्यू. डी. वी.)	वर्ष का आरम्भिक शेष 1.4.2015	वर्ष के अन्तर्गत जोड़ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत शेष 31.3.2016	वर्ष का आरम्भिक शेष 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत जोड़ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत शुद्ध योग 31.03.2016	वर्तमान वर्ष का शेष 31.03.2016	विगत वर्ष का शेष 31.03.2015
शेष आगे ले आये		355,004,306.16	4,159,375.00	-	359,163,681.16	22,381,898.56	3,951,410.00	-	26,333,308.56	332,830,372.60	332,622,407.60
एयर कंडीशन					9,032,279.89	680,988.84	571,743.00		1,252,731.84	7,779,548.05	7,081,882.05
(भण्डार)	6.33%	7,762,870.89	1,269,409.00		648,244.70	307,917.50	41,034.00		348,951.50	299,293.20	340,327.20
(ग्रन्थालय)	6.33%	648,244.70			73,051.00	34,699.84	4,624.00		39,323.84	33,727.16	38,351.16
(आयुर्वेद)	6.33%	73,051.00			1,098,296.80	180,813.12	69,522.00		250,335.12	847,961.68	580,624.68
जिराक्स/डुप्लीकेटिंग मशीन			336,859.00		968,738.79	441,533.45	61,321.00		502,854.45	465,884.34	527,205.34
(भण्डार)	6.33%	761,437.80			78,387.00	22,338.00	4,962.00		27,300.00	51,087.00	56,049.00
(ग्रन्थालय)	6.33%	968,738.79			31,560.96	14,990.20	1,998.00		16,988.20	14,572.76	16,570.76
(आयुर्वेद)	6.33%	78,387.00			37,192.87	17,668.34	2,354.00		20,022.34	17,170.53	19,524.53
टाइपराइटर					599,792.50	257,329.00	31,669.00		288,998.00	310,794.50	342,463.50
(भण्डार)	5.28%	599,792.50			58,564.00	20,401.00	392.00		20,793.00	37,771.00	22,553.00
(ग्रन्थालय)	5.28%	42,954.00	15,610.00		24,700.00	11,419.00	1,304.00		12,723.00	11,977.00	13,281.00
(निदेशक कार्यालय)	5.28%	24,700.00			1,100.00	522.25	58.00		580.25	519.75	577.75
(शब्दकोश)	5.28%	1,100.00			369,892.67	138,286.00	117,145.00		255,431.00	114,461.67	231,606.67
कम्प्यूटर			1,944,259.00		20,794,138.04	5,249,642.43	6,585,503.00		11,835,145.43	8,958,992.61	13,600,236.61
(आयुर्वेद)	31.67%	369,892.67			5,282,660.94	3,172,031.00	1,673,019.00		4,845,050.00	437,610.94	2,110,629.94
(भण्डार)	31.67%	18,849,879.04			1,746,064.00	964,339.50	552,978.00		1,517,317.50	228,746.50	781,724.50
(ग्रन्थालय)	31.67%	5,282,660.94			806,796.00	975,901.00	(169,105.00)		806,796.00	-	-169,105.00
(शब्दकोश)	31.67%	1,746,064.00			1,558,798.00	919,023.00	493,671.00		1,412,694.00	146,104.00	639,775.00
(प्रकाशन)	31.67%	806,796.00			265,520.00	82,073.00	19,409.00		101,482.00	164,038.00	183,447.00
(शोध-विभाग)	31.67%	1,558,798.00			491,479.00	233,449.00	35,927.00		269,376.00	222,103.00	258,030.00
टी.वी.वी.सी.आर./स्ला.प्रोजेक्ट					3,321.60	2,348.50	210.00		2,558.50	763.10	973.10
(भण्डार)	7.31%	265,520.00			476,290.00	226,237.00	30,149.00		256,386.00	219,904.00	250,053.00
(ग्रन्थालय)	7.31%	491,479.00			166,891.88	79,271.00	10,564.00		89,835.00	77,056.88	87,620.88
साइकिल व ट्रांसी					30,500.00	14,489.00	1,931.00		16,420.00	14,080.00	16,011.00
(भण्डार)	6.33%	3,321.60			60,213.00	28,603.00	3,811.00		32,414.00	27,799.00	31,610.00
जनरेटर					7,037,214.64	1,047,333.15	514,420.00		1,561,753.15	5,475,461.49	5,967,206.49
(भण्डार)	6.33%	476,290.00			314,397.00	140,315.00	22,982.00		163,297.00	151,100.00	174,082.00
(ग्रन्थालय)	6.33%	166,891.88	22,675.00		254,741.00	121,003.00	18,621.00		139,624.00	115,117.00	133,738.00
(शब्दकोश)	6.33%	30,500.00			541,320.00	257,129.00	39,570.00		296,699.00	244,621.00	284,191.00
बाइन्डर मशीन					412,015,827.44	38,023,992.68	14,693,196.00		52,717,188.68	359,298,638.76	366,243,647.76
(ग्रन्थालय)	7.31%	60,213.00			412,015,827.44	38,023,992.68	14,693,196.00		52,717,188.68	359,298,638.76	366,243,647.76
आडियो विजुवल											
(भण्डार)	7.31%	7,014,539.64									
(ग्रन्थालय)	7.31%	314,397.00									
साइक्रोफिल्म फिश											
(ग्रन्थालय)	7.31%	254,741.00									
साइक्रोफिल्म रोल											
(ग्रन्थालय)	7.31%	541,320.00									
शेष आगे ले गये		404,267,640.44	7,748,187.00	-							

विवरण	हास दर (डब्ल्यू.)	सम्पूर्ण स्थिति				वर्ष के अन्तर्गत हास				वास्तविक स्थिति	
		वर्ष का आरम्भिक शेष 1.4.2015	वर्ष के अन्तर्गत जोड़ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत समायोजनार्थ 2015-	वर्ष के अन्तर्गत शेष 31.3.2016	वर्ष का आरम्भिक शेष 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत जोड़ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत समायोजनार्थ 2015-	वर्ष के अन्तर्गत शुद्ध योग 31.03.2016	वर्तमान वर्ष का शेष 31.03.2016	विगत वर्ष का शेष 31.03.2015
शेष आगे ले आये		404,267,640.44	7,748,187.00	-	412,015,827.44	38,023,992.68	14,693,196.00	-	52,717,188.68	359,298,638.76	366,243,647.76
फोटो/वीडियो/माइक्रोफिल्म/कैम् (आयुर्वेद)	7.31%	48,240.00			48,240.00	22,911.00	3,526.00		26,437.00	21,803.00	25,329.00
(ग्रन्थालय)	7.31%	1,492,673.75			1,492,673.75	709,020.00	109,114.00		818,134.00	674,539.75	783,653.75
चिकित्सीय उपकरण (भण्डार)	6.33%	11,973.00	20,850.00		32,823.00	5,689.00	2,077.00		7,766.00	25,057.00	6,284.00
(आयुर्वेद)	6.33%	808,163.00	167,455.00		975,618.00	277,065.00	61,757.00		338,822.00	636,796.00	531,098.00
4. वाहन क्रय	11.88%	1,867,637.50			1,867,637.50	1,431,978.00	221,875.00		1,653,853.00	213,784.50	435,659.50
5. फर्नीचर व साजसज्जा तिब्बती चूल्हा	11.88%	55,219.00			55,219.00						0
कूलर व पखा (भण्डार)	9.50%	956,899.10	161,640.00		1,118,539.10	34,951.00	6,560.00		41,511.00	13,708.00	20,268.00
(ग्रन्थालय)	9.50%	7,805.12			7,805.12	458,306.60	106,261.00		564,567.60	553,971.50	498,592.50
(आयुर्वेद)	9.50%	4,700.00			4,700.00	4,938.00	741.00		5,679.00	2,126.12	2,867.12
(शब्दकोश)	9.50%	12,850.00			12,850.00	1,192.00	447.00		1,639.00	3,061.00	3,508.00
फर्नीचर (लकड़ा आर प्लास्टिक)	(भण्डार) 11.88%	23,238,994.05	2,805,443.00		26,044,437.05	6,682,684.60	3,094,079.00		9,776,763.60	16,267,673.45	16,556,309.45
(ग्रन्थालय)	11.88%	1,377,530.43			1,377,530.43	858,053.00	163,651.00		1,021,704.00	355,826.43	519,477.43
(शब्दकोश)	11.88%	17,764.00			17,764.00	11,243.00	2,110.00		13,353.00	4,411.00	6,521.00
(सोवा-रिग्पा)	11.88%	400,958.00			400,958.00	126,903.60	47,634.00		174,537.60	226,420.40	274,054.40
फर्नीचर (स्टील)	(भण्डार) 11.88%	19,962,453.49	14,675,487.00		34,637,940.49	4,321,426.00	4,114,987.00		8,436,413.00	26,201,527.49	15,641,027.49
(ग्रन्थालय)	11.88%	1,207,098.68			1,207,098.68	763,524.00	143,403.00		906,927.00	300,171.68	443,574.68
(आयुर्वेद)	11.88%	1,668,269.25			1,668,269.25	561,282.30	198,190.00		759,472.30	908,796.95	1,106,986.95
(तवाग प्रोजेक्ट)	11.88%	262,157.60			262,157.60	101,228.00	31,144.00		132,372.00	129,785.60	160,929.60
(शब्दकोश)	11.88%	0.00			-	0.00	-		-	-	0.00
विद्युत उपकरण (शब्दकोश)	9.50%	0.00			-	0.00	-		-	-	0.00
(भण्डार)	9.50%	6,593,491.13	314,588.00		6,908,079.13	2,222,596.00	656,267.00		2,878,863.00	4,029,216.13	4,370,895.13
(ग्रन्थालय)	9.50%	280,598.78			280,598.78	162,915.00	26,657.00		189,572.00	91,026.78	117,683.78
(आयुर्वेद)	9.50%	98,499.00			98,499.00	44,019.00	9,357.00		53,376.00	45,123.00	54,480.00
(निदेशक कार्यालय)	9.50%	45,680.00			45,680.00	24,453.00	4,340.00		28,793.00	16,887.00	21,227.00
6. पुस्तक क्रय किताब का क्रय (ग्रन्थालय)	6.33%	40,484,147.34	4,184,233.00		44,668,380.34	13,078,071.40	2,827,508.00		15,905,579.40	28,762,800.94	27,406,075.94
(दू.बौ.ग्र.शौ.अ.)	6.33%	498,557.28	1,280.00		499,837.28	208,581.00	31,640.00		240,221.00	259,616.28	289,976.28
(आयुर्वेद)	6.33%	719,718.00	240,000.00		959,718.00	39839.35	60,750.00		100,589.35	859,128.65	679,878.65
दान में प्राप्त किताबें (ग्रन्थालय)	6.33%	4,053,114.33	264,655.00		4,317,769.33	1,224,368.20	273,315.00		1,497,683.20	2,820,086.13	2,828,746.13
(दू.बौ.ग्र.शौ.अ.)	6.33%	76,173.40	6,700.00		82,873.40	29,384.00	5,246.00		34,630.00	48,243.40	46,789.40
थका पॉन्टिंग (ग्रन्थालय)	6.33%	29,169.00			29,169.00	13,859.00	1,846.00		15,705.00	13,464.00	15,310.00
7. कन्ज्युमेबल व अन्य सम्पत्ति कन्ज्युमेबल व अन्य सम्पत्ति	100.00%	3,902,148.32	0.00		3,902,148.32	3,902,148.32	-		3,902,148.32	-	-
योग		514,450,322.99	30,590,518.00	-	545,040,840.99	75,354,753.05	26,898,899.00	-	102,253,652.05	442,787,188.94	439,095,569.94

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आर्थिक-चिट्ठा (बैलेंस-शीट)

सूची 10 - अन्य विनियोग विवरण	वर्ष का आरम्भिक मूल्य 01.04.15	वर्ष के अन्तर्गत जोड़ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ 2015-16	वर्ष के अन्तर्गत शेष 31.3.2016	वर्ष 2015-16	वर्ष 2014-15
सावधि जमा (प्रो. के. एस. मूति, प्रो. ए. के. सरन व प्रीति इण्डोमेन्ट फण्ड)	624,413.00	-	-	624,413.00	624,413.00	624,413.00
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	904,758.00	-	-	904,758.00	904,758.00	904,758.00
सावधि जमा कारपस कोश ब्याज सहित	97,063,683.00	1,201,432.00	-	98,265,115.00	98,265,115.00	97,063,683.00
सामान्य भविष्यनिधि एवं कर्मचारी भविष्यनिधि बैंक में जमा तथा रिजर्व बैंक बाण्ड/के.डी.आर. में विनियोग के अनुसार	90,851,299.00	16,392,389.00	14,757,850.00	92,485,838.00	92,485,838.00	90,851,299.00
प्रारम्भिक शेष जी.पी.एफ./सी.पी.एफ.	3,705,720.80	26,846,607.50	14,374,136.00	16,178,192.30	16,178,192.30	3,705,720.80
अर्जित ब्याज जो प्राप्त नहीं है	17,070,060.00	9,479,761.00	1,879,119.00	24,670,702.00	24,670,702.00	17,070,060.00
सावधि जमा						
सोवा-रिगपा विभाग का रिवाल्विंग फण्ड	1,300,000.00	-	700,000.00	600,000.00	600,000.00	1,300,000.00
सोवा-रिगपा विभाग के रिवाल्विंग फण्ड पर प्राप्त	918,080.00	136,450.00	129,604.00	924,926.00	924,926.00	918,080.00
योग	212,438,013.80	54,056,639.50	31,840,709.00	234,653,944.30	234,653,944.30	212,438,013.80

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आर्थिक-चिट्ठा (बैलेंस-शीट)

सूची 11 - वर्तमान सम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम

विवरण		वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
<b>(अ) वर्तमान सम्पत्तियाँ -</b>					
1.	विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का मूल्य	11,426,232.02			
	वर्ष के अन्तर्गत जोड़	786,341.00		<b>9,163,357.02</b>	
	घटाया- पुस्तकों का विक्रय मूल्य	626,634.00	<b>11,585,939.02</b>	2,799,116.00	
2.	रोकड़ हाथ में - आरम्भिक शेष	204,588.00		536,241.00	<b>11,426,232.02</b>
	वर्ष के अन्तर्गत जोड़			<b>495.00</b>	
	वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	204,588.00		204,588.00	
3.	बैंकों में अवशेष			495.00	<b>204,588.00</b>
	क) यूनियन बैंक में आरम्भिक शेष	64,774,191.19		4,021,558.40	
	वर्ष के अन्तर्गत जोड़	46,266,577.50		64,774,191.19	
	वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	64,774,191.19	<b>46,266,577.50</b>	4,021,558.40	<b>64,774,191.19</b>
	ख) केनरा बैंक में (एफ.सी.1) - आरम्भिक शेष	492,829.98		382,869.98	
	वर्ष के अन्तर्गत जोड़	382,869.98		492,829.98	
	वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	492,829.98	<b>382,869.98</b>	382,869.98	<b>492,829.98</b>
	ग) सोवा-रिग्पा विभाग का यूनियन बैंक में प्रारम्भिक अ	1,277,377.84		848,305.80	
	वर्ष के अन्तर्गत जोड़	1,389,079.60		1,277,377.84	
	वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	1,277,377.84	<b>1,389,079.60</b>	848,305.80	<b>1,277,377.84</b>
<b>(ब) ऋण व अग्रिम तथा अन्य सम्पत्तियाँ -</b>					
1.	<b>अग्रिम -</b>				
	क) त्योहार अग्रिम - आरम्भिक शेष	262,200.00		222,000.00	
	वर्ष के अन्तर्गत जोड़	198,000.00		270,000.00	
	वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	270,900.00	<b>189,300.00</b>	229,800.00	<b>262,200.00</b>
	ख) वाहन अग्रिम - आरम्भिक शेष	390,870.00		395,290.00	
	वर्ष के अन्तर्गत जोड़	270,000.00		299,000.00	
	वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	265,800.00	<b>395,070.00</b>	303,420.00	<b>390,870.00</b>
	ग) भवन अग्रिम - आरम्भिक शेष	730,380.00		426,160.00	
	वर्ष के अन्तर्गत जोड़	-		375,000.00	
	वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	166,780.00	<b>563,600.00</b>	70,780.00	<b>730,380.00</b>
	घ) अस्थाई अग्रिम - आरम्भिक शेष	5,132,081.00		775,000.00	
	वर्ष के अन्तर्गत जोड़	-		5,132,081.00	
	वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	-	<b>5,132,081.00</b>	775,000.00	<b>5,132,081.00</b>
	शेष आगे ले गये		<b>65,904,517.10</b>		<b>84,690,750.03</b>

विवरण		वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
	शेष आगे ले आये		65,904,517.10		84,690,750.03
2.	<u>जमा -</u>				
क)	एच.एस.सी.एल. के साथ जमा - आरम्भिक शेष वर्ष के अन्तर्गत जोड़	9,350,000.00		10,946,831.00	
	वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	-	9,350,000.00	10,946,831.00	-
ख)	पी.वी.वी.एन. के साथ जमा - आरम्भिक शेष वर्ष के अन्तर्गत जोड़	-		17,508,213.00	
	वर्ष के अन्तर्गत समायोजन	-	-	17,508,213.00	-
3.	<u>अमानत जमा -</u>				
क)	टेलीफोन विभाग	22,410.00		22,410.00	
ख)	अरबन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूसन वाराणसी- खण्ड 5/6 वर्ष के अन्तर्गत जोड़	762,634.00		762,634.00	
ग)	नगरमहापालिका	25.00	785,069.00	25.00	785,069.00
	योग		76,039,586.10		85,475,819.03

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी  
(मान्य विश्वविद्यालय)  
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आय-व्यय विवरण

सूची 12 - विक्रय से आय	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
(Amount-Rs.)				
1) विक्री से आय-				
2) वसूली से आय-				
(क) बिजली व्यय से वसूली	526,858.00		306,903.00	
(ख) अनुज्ञप्ति फीस	156,226.00		130,955.00	
(ग) स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	88,039.00		45,096.00	
(घ) परीक्षा से आय	167,163.00		119,650.00	
(ङ) भवन निर्माण ऋण पर ब्याज	141,000.00		44,000.00	
(च) पुरानी सम्पत्तियों की विक्री	-		355,342.00	
<b>योग सूची-12</b>		<b>1,079,286.00</b>		<b>1,001,946.00</b>
<b>सूची 13 - अनुदान/सब्सिडी</b>				
1) भारत सरकार के संस्कृति मन्त्रालय के संस्कृति विभाग नई दिल्ली से				
(क) योजनेतर (मद-36 व 31)	143,790,393.00		172,796,484.00	
विगत वर्ष का अवशेष 2013-14	17,309,606.17		3,516.38	
विश्वविद्यालय की विविध आय 2014-15	1,534,702.00		1,915,736.00	
<b>कुल अनुदान</b>	<b>162,634,701.17</b>		<b>174,715,736.38</b>	
घटाया - पूँजीगत व्यय	468,000.00		944,000.00	
घटाया - अवशेष धनराशि वर्ष 2014-15	32,115,846.48	130,050,854.69	17,309,606.17	156,462,130.21
(ख) योजनान्तर्गत (मद-36, 31 व 35)	61,125,513.00		129,943,005.00	
एच.एस.सी.एल. के अग्रिम चेक का निरस्तीकरण	-		6,970,000.00	
विगत वर्ष का अवशेष 2013-14	45,124,486.42		56,994.42	
<b>कुल अनुदान</b>	<b>106,249,999.42</b>		<b>136,969,999.42</b>	
घटाया - पूँजीगत व्यय	40,455,504.00		51,935,841.13	
घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2014-15	9,941,998.42	55,852,497.00	45,124,486.42	39,909,671.87
(ग) एन. ई. आर. प्रोजेक्ट	-		-	
विगत वर्ष का अवशेष 2013-14	15,615.00		1,189,305.00	
<b>कुल अनुदान</b>	<b>15,615.00</b>		<b>1,189,305.00</b>	
घटाया - पूँजीगत व्यय	-		-	
घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2014-15	-	15,615.00	-	
यू.जी.सी. सामान्य विकास योजना	-		15,615.00	1,173,690.00
विगत वर्ष का अवशेष 2013-14	847.00		-	
<b>कुल अनुदान</b>	<b>847.00</b>		<b>1,841,162.00</b>	
घटाया - पूँजीगत व्यय	-		1,841,162.00	
घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2014-15	-		1,450,846.00	
यू.जी.सी. विलीनीकृत योजना	-	847.00	847.00	389,469.00
विगत वर्ष का अवशेष 2013-14	950,000.00		950,000.00	
<b>कुल अनुदान</b>	<b>950,000.00</b>		<b>950,000.00</b>	
घटाया - पूँजीगत व्यय	950,000.00		-	
घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2014-15	-		-	
<b>शेष आगे ले गये</b>	<b>950,000.00</b>		<b>950,000.00</b>	
		<b>185,919,813.69</b>		<b>197,934,961.08</b>

	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
		197,934,961.08		155,137,570.37
शेष आगे ले आये	114,000.00		114,000.00	
दलाई लामा के आफिस से प्राप्त धनराशि	-		-	
विगत वर्ष का अवशेष 2013-14	-	114,000.00	-	114,000.00
चालू वर्ष का अवशेष 2014-15	-		-	
स्मिथ/तस्मानिया कालेज द्वारा प्राप्त धनराशि	37,905.60		37,905.60	
विगत वर्ष का अवशेष 2013-14	37,905.60	-	37,905.60	-
घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2014-15	500,116.00		1,840,580.00	
स्मिथ/तस्मानिया कालेज द्वारा प्राप्त धनराशि (एफ.सी.आर.ए. खाते के साथ)	109,960.00	610,076.00	109,960.00	1,730,620.00
वर्ष के अन्तर्गत अवशेष 2013-14	-		-	
वर्ष के अन्तर्गत अवशेष 2014-15	134,666.00		14,954.00	
इन्डोमेन्ट फण्ड पर प्राप्त ब्याज	-		-	
प्रीती इण्डोमेन्ट फण्ड पर प्राप्त ब्याज का अवशेष वर्ष 2013-14	104,653.00	30,013.00	-	14,954.00
चालू वर्ष का अवशेष 2014-15	-		-	
आई.सी.पी.आर. द्वारा प्राप्त धनराशि	-		-	
विगत वर्ष का अवशेष 2013-14	-		-	
चालू वर्ष का अवशेष 2014-15	-		900,000.00	
कारपस कोष पर प्राप्त ब्याज	900,000.00		270,455.00	
विगत वर्ष का अवशेष 2013-14	726,465.00	625,557.00	726,465.00	443,990.00
घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2014-15 (अधिक व्यय)	1,000,908.00	187,299,459.69		200,238,525.08
कुल योग सूची-13			-	
सूची 16 - पुस्तक की विक्री से आय				
योग सूची-16				
सूची 17 - अर्जित ब्याज				
(1) बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	4,461,654.00	4,461,654.00	2,098,625.00	2,098,625.00
योग सूची-17	374,092.34		506,158.68	
सूची 18 - अन्य प्राप्तियाँ (विविध आय)		374,092.34		506,158.68
योग सूची-18				
सूची 20 - स्थापन्न व्यय				
(अ) वेतन और भत्ते			109,521,005.00	
वेतन व भत्ते	102,647,224.00		-	
पेंशन एवं ग्रेच्युटी	558,296.00		706,831.00	
एल.टी.सी./एच.टी.सी.	1,101,146.00		961,256.00	
कर्मचारी चिकित्सा पर व्यय	715,128.00		480,155.00	
बाल शिक्षा भत्ता	-		-	
कर्मचारी वर्दी पर व्यय	10,754.00		13,137.00	
कर्मचारी प्रतिपूरक भत्ता	-		5,297,460.00	
रिक्त पदों पर अस्थाई कर्मचारियों का वेतन	18,597,003.00		10,292,996.00	
योजनान्तर्गत पदों पर वेतन एवं भत्ते का भुगतान		123,629,551.00		127,272,840.00

सूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय (ब) रखरखाव	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
पेशन व ग्रेच्युटी	12,068,451.00		13,692,307.00	
अस्थाई व संविदा सेवा पर व्यय	-		2,314,304.00	
प्रोफेशनल ट्रेनिंग व विजिटिंग प्रोफेसर	-		-	
बागवानी पर व्यय	371,084.00		1,775,314.00	
छात्रवृत्ति	3,396,950.00		3,582,400.00	
शैक्षणिक यात्रा पर व्यय	579,432.00		649,958.00	
दवा क्रय पर व्यय	327,057.00		816,589.00	
जनरेटर सेट/ग्रन्थालय/साज-सज्जा पर व्यय	669,094.00		740,483.00	
भवन के मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय	-		102,492.00	
कार्यालयी वाहन पर व्यय	221,184.00		372,269.00	
जनरेटर सेट के डीजल पर व्यय	89,616.00		465,004.00	
विद्युत सामग्री क क्रय	-		703,628.00	
विद्युत व्यय	7,115,469.00		6,258,600.00	
टेलीफोन पर व्यय	59,800.00		110,835.00	
परीक्षा पर व्यय	1,531,556.00		1,378,980.00	
सोवा-रिग्पा विभाग में रखरखाव एवं आधारभूत ढाँचा पर व्यय	-		74,715.00	
यात्रा-भत्ता पर व्यय	826,222.00		455,561.00	
व्याख्यानमाला पर व्यय	114,943.00		78,606.00	
अंकेक्षण पर व्यय	206,520.00		-	
सांस्कृतिक कार्यक्रम पर व्यय	42,231.00		371,602.00	
सदस्यता शुल्क (ए.आई.यू./ए.सी.यू./आई.आई.सी.)	116,915.00		108,427.00	
सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर व्यय	274,890.00		333,556.00	
स्टेशनरी व छपाई पर व्यय	1,014,944.00		886,022.00	
पत्रप्रेषण पर व्यय	36,085.00		33,157.00	
विविध व्यय	519,002.03		305,179.89	
विज्ञापन पर व्यय	115,200.00		19,000.00	
वार्षिक उत्सव/दीक्षान्त समारोह पर व्यय	445,630.00		-	
खेलकूद	300,768.00		313,807.00	
कानूनी व्यय	75,500.00		197,534.00	
ग्रीष्म व शरद छात्र कैम्पिंग	325,387.00		301,115.00	
जलकर पर व्यय	89,409.00		89,409.00	
यूनियन बैंक को ऋण पर किये गये ब्याज का भुगतान	-		-	
		30,933,339.03	58,162.00	36,589,015.89
शेष आगे ले आये		30,933,339.03		36,589,015.89

	वर्ष 2015-16		वर्ष 2014-15	
		<b>30,933,339.03</b>	<b>36,589,015.89</b>	
योजनान्तर्गत	शेष आगे ले आये			
शब्दकोश विभाग		46,621.00	2,474,318.00	
ग्रन्थालय विभाग		4,664,903.00	63,551.00	
दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध अनुभाग		84,816.00	522,638.00	
पुनरुद्धार एवं अनुवाद अनुभाग		-	2,729,308.00	
फर्नीचर एवं साज-सज्जा पर व्यय		8,508,248.00	656,412.00	
अन्य योजनान्तर्गत क्रियाकलाप		2,052,078.00	1,324,139.00	
विद्वत् आदान-प्रदान व गोष्ठी पर व्यय		191,940.00	540,133.00	
अहस्तान्तरित धनराशि		2,685,304.00	20,589,193.00	
भवन के मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय		1,186,001.00	-	
कम्प्यूटर केन्द्र		15,438,900.00	-	
अन्तर बुद्धिस्ट संस्थान संयुक्त उपक्रम पर व्यय		785,778.00	-	
अन्तर विश्वविद्यालय संयुक्त उपक्रम पर व्यय		876,562.00	-	
एक्सटेंशन ऑफ लेक्चर एण्ड सार्ट टर्म कोर्स ऑन साइंस इन माडर्न अप्रोच		-	326,964.00	
भुन्दुर में शाखा स्थापना पर व्यय		-	-	
क्लासिकल व आधुनिक भाषा पर व्यय		603,597.00	249,388.00	
सोवा-रिगपा के विकास पर व्यय		130,746.00	15,233.00	
शिल्पविद्या के विकास पर व्यय			125,398.87	
ग्रन्थालय विकास पर व्यय				66,205,691.76
साज-सज्जा पर व्यय			1,173,690.00	1,173,690.00
उत्तरपूर्व में तवांग योजना पर औषधीय पौधों पर व्यय		15,615.00	15,615.00	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (12वीं योजना) द्वारा प्राप्त अनुदान का व्यय		-	-	
यात्रा भत्ता व्यय		-	300,000.00	
सेमिनार व वर्कशाप पर व्यय		-	-	
संयन्त्रों का रखरखाव		-	-	
विजिटिंग प्रोफेसर एवं फेलोशिप पर व्यय		-	-	
भवन के मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय		-	-	
इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास पर व्यय		-	89,469.00	389,469.00
छात्रों की गतिविधियाँ (कोचिंग, शैक्षणिक यात्रा, हेल्थकेयर सेन्टर पर व्यय)				
साज-सज्जा पर व्यय			114,000.00	
अनुदानेतर व्यय		114,000.00	14,954.00	
परम पावन दलाई लामा जी के कार्यालय से प्राप्त धनराशि का भुगतान		30,013.00	443,990.00	
प्रीति इण्डोमेन्ट ब्याज का व्यय		625,557.00	1,730,620.00	
कारपस कोष ब्याज का व्यय		610,076.00		
तस्मानिया यूनिवर्सिटी से प्राप्त धनराशि का भुगतान		847.00	-	2,303,564.00
यूजीसी फंड की वापसी		-		<b>70,072,414.76</b>
आई.सी.पी.आर. फण्ड का व्यय			13,072,389.25	13,072,389.25
		<b>26,898,899.00</b>	<b>26,898,899.00</b>	
	योग सूची-21			
वर्ष के दौरान चार्ज किया गया सम्पत्तियों पर ह्रास (सूची 8 के अनुसार)				

CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,  
(Deemed University)  
SARNATH, VARANASI

ASSET CREATION DURING THE YEAR 2015-16  
AS PER DETAILED UNDER

HEAD OF BALANCE SHEET

Sl. No.	Head of Receipt & Payments	Books of Library	Mobile /telephone Library	RBTRU	Books for Sowa Rigpa	medical Equipment-Sowarigpa	Furniture (wooden)	Furniture (Iron Steel)	Computer	Fan & Coolar	PhotoCopier Machine	Purchase of Electrical goods	Air Conditioner	A/V Materials	Medical Equipment	Cost of Building	Boundrywall	Lift	Total	
1	Devel. of Lib. (Books)	4,184,233.00		1,280.00	240,000.00															
2	Furniture and Equipment (A)		15,610.00			167,455.00	2,805,443.00	14,675,487.00	1,944,259.00	161,640.00	336,859.00	314,588.00	1,269,409.00	22,675.00	20,850.00					4,425,513.00
3	U.G.C.Equipment																	1,750,732.00		23,485,007.00
4	Purchase of Land																			
5	W.I.P. OFHSCL																			
																2,355,643.00	53,000.00			2,408,643.00
	Gross Total	4,184,233.00	15,610.00	1,280.00	240,000.00	167,455.00	2,805,443.00	14,675,487.00	1,944,259.00	161,640.00	336,859.00	314,588.00	1,269,409.00	22,675.00	20,850.00	2,355,643.00	53,000.00	1,750,732.00		30,319,163.00

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,**  
(Deemed University)  
**SARNATH, VARANASI**

**ASSET CREATION DURING THE YEAR 2015-16**  
**AS PER DETAILED UNDER**

**HEAD OF BALANCE SHEET**

Amount (Rs.)

Sl. No.	Head of Receipt & Payments	Festival Advance	Scooter Advance	Cash in Hand	Cost of Publication	Advance HSCL	H.B.advance	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Festival Advance	198,000.00					NIL	198,000.00
2	House Building Advance							270,000.00
3	Scooter/Computer Adv.		270,000.00					-
4	Cash in hand			NIL		9,350,000.00		9,350,000.00
5	Advance with HPCL				786,341.00			786,341.00
6	Cost of Own Publication							
					786,341.00	9,350,000.00	-	10,604,341.00
	<b>Gross total</b>	<b>198,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>-</b>	<b>786,341.00</b>	<b>9,350,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,604,341.00</b>

Total Assest Page No. 1	30,319,163.00
Total Assest Page No. 2	10,604,341.00
Books in donation by R.B.T.R.P	6,700.00
Books in donation by Library	264,655.00
<b>Gross Asset Creation</b>	<b>41,194,859.00</b>
<b>Asset taken in Building</b>	<b>Schedule -8</b>
Cost of Building	1,450,835.00 By HSCL
Boundry wall	53,000.00 By HSCL
Cost of Tubwell	904,808.00 To HSCL
	38,786,216.00
Asset taken in Other Assets	-
<b>Total</b>	<b>41,194,859.00</b>

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,**  
(Deemed University)  
**SARNATH, VARANASI**

**ADJUSTABLE VALUE DURING THE YEAR 2015-16**

**Writ- off value**

Sl. No.	Head of Balance Sheet	Writ- off value		
		Central Store	Dictionary Unit.	
	<b>Recoveries / Sales</b>			
1	Festival Advance Recoveres	270,900.00		
2	Scooter Advance Recoveres	265,800.00		
3	House Building Advance Recoveres	166,780.00		
4	Cash in Hand	204,588.00		
5	Sale of Books	626,634.00		
	<b>Total</b>	<b>1,534,702.00</b>		

Adjustable value

1,534,702.00 Schedule-11

Gross Total

1,534,702.00